



सत्यमेव जयते



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation

वार्षिक लेखे
ANNUAL ACCOUNTS
2020 - 2021

वार्षिक लेखे

ANNUAL ACCOUNTS

2 0 2 0 - 2 0 2 1



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi - 110 002
Toll Free No. 1800-11-2526, Medical Helpline No. 1800-11-3839
Website: www.esic.nic.in, www.esic.in

 esic.nic.in  [@esichq](https://www.facebook.com/esichq)  [@esichq](https://twitter.com/esichq)  [@esichq](https://www.youtube.com/esichq)  [@esichq](https://www.instagram.com/esichq)  [@esichq](https://www.whatsapp.com/esichq)



विषय सूची

क्र.सं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	4
2	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा	6
3	अनुसूची 1 – समग्र / पूंजी निधि	8
4	अनुसूची 2 – आरक्षितियां एवं अधिशेष	8
5	अनुसूची 3 – उद्दिष्ट निधियां	10
6	अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण एवं उधार	12
7	अनुसूची 5 – प्रतिभूति रहित ऋण एवं उधार	14
8	अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएं	14
9	अनुसूची 7 – वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	16
10	अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियाँ	18
11	अनुसूची 9 – उद्दिष्ट निधियों से निवेश	20
12	अनुसूची 10 – निवेश – सामान्य आरक्षित निधियां / अन्य निधियां	20
13	अनुसूची 11 – वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा पेशगियां आदि	22
14	अनुसूची 11 – वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, पेशगियां इत्यादि (जारी)	24
15	अनुसूची 12 – अंशदान / बिक्री / सेवा से आय	26
16	अनुसूची 13 – अनुदान / सहायिकी	26
17	अनुसूची 14 – शुल्क / अभिदान	28
18	अनुसूची 15 – निवेश से आय	28
19	अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	30
20	अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज	30
21	अनुसूची 18 – अन्य आय	32
22	अनुसूची 19 – तैयार माल के स्टॉक और चल रहे कार्य में वृद्धि / (कमी)	32
23	अनुसूची 20 – बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर व्यय	34
24	अनुसूची 20 – ख नकद हितलाभ	36
25	अनुसूची 20 – ग अन्य हितलाभ	36
26	अनुसूची 20 – घ चिकित्सा शिक्षा	38
27	अनुसूची 21 – क स्थापना खर्च – अधीक्षण	40
28	अनुसूची 21 – ख स्थापना खर्च – क्षेत्र कार्य	40
29	अनुसूची 21 – स्थापना खर्च	42
30	अनुसूची 22 – अन्य प्रशासनिक खर्च	44
31	अनुसूची 23 – अनुदान, सहायिकी इत्यादि पर व्यय	46
32	अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	48
33	अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां	50-58
34	अनुसूची 26 – पूर्वावधि मर्दे	60
35	निवेश – उद्दिष्ट आरक्षित निधियां	62
36	निवेश – गैर उद्दिष्ट आरक्षित निधियां	64
37	31 मार्च, 2021 को सामान्य भविष्य निधि प्राप्तियां तथा भुगतान	66
38	वर्ष 2020-21 के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा	68

CONTENT

Sr. No.	Particulars	Page No.
1	Balance Sheet as at 31 st March, 2021	5
2	Income and Expenditure Account for the Year Ended 31 st March, 2021	7
3	Schedule 1 - Corpus / Capital Fund	9
4	Schedule 2 - Reserves and Surplus	9
5	Schedule 3 - Earmarked Funds	11
6	Schedule 4 - Secured Loans and Borrowings	13
7	Schedule 5 - Unsecured Loans and Borrowings	15
8	Schedule 6 - Deferred Credit Liabilities	15
9	Schedule 7 - Current Liabilities and Provisions	17
10	Schedule 8 - Fixed Assets	19
11	Schedule 9 - Investments from Earmarked Funds	21
12	Schedule 10 - Investments - General Reserve Funds / Other Funds	21
13	Schedule 11 - Current Assets, Loans, Advances etc.	23
14	Schedule 11 - Current Assets, Loans, Advances etc. (Contd.)	25
15	Schedule 12 - Income from Contributions / Sales / Service	27
16	Schedule 13 - Grants / Subsidies	27
17	Schedule 14 - Fees / Subscriptions	29
18	Schedule 15 - Income from Investments	29
19	Schedule 16 - Income from Royalty, Publication etc.	31
20	Schedule 17 - Interest Earned	31
21	Schedule 18 - Other Income	33
22	Schedule 19 - Increase / (Decrease) in Stock of Finished Goods & Work in Progress	33
23	Schedule 20 - Expenditure on Benefits to Insured Persons	35
24	Schedule 20 - B Cash Benefits	37
25	Schedule 20 - C Other Benefits	37
26	Schedule 20 - D Medical Education	39
27	Schedule 21 - A Establishment Expenses - Superintendents	41
28	Schedule 21 - B Establishment Expenses - Field Work	41
29	Schedule 21 - Establishment Expenses	43
30	Schedule 22 - Other Administrative Expenses	45
31	Schedule 23 - Expenditure on Grants, Subsidies etc.	47
32	Schedule 24 - Significant Accounting Policy	49
33	Schedule 25 - Contingent Liabilities and Notes on Accounts	51-59
34	Schedule 26 - Prior Period Items	61
35	Investment - Earmarked Reserve Funds	63
36	Investment - Non Earmarked Reserve Funds	65
37	GPF Receipts and Payments as on 31 st March, 2021	67
38	Receipt & Payment Account for the Year 2020-21	69



कर्मचारी राज्य बीमा निगम 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

₹ करोड़ में

समग्र / पूंजी निधि तथा देयताएं	अनुसूची	2020-21	2019-20
समग्र / पूंजी निधि	1	-	-
आरक्षितियां एवं अधिशेष	2	103,440.00	96,095.40
उद्दिष्ट / अक्षय निधि	3	28,964.27	26,291.08
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4	-	-
प्रतिभूति रहित ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	7	3,730.61	3,197.87
कुल		136,134.88	125,584.35
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8	15,196.59	14,714.87
निवेश - उद्दिष्ट / अक्षय निधियां	9	28,836.45	26,171.57
निवेश - गैर उद्दिष्ट / अक्षय निधि	10	87,416.87	81,095.15
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, पेशगियां इत्यादि	11	4,684.97	3,602.76
विविध व्यय (बट्टे खाते डालने या समायोजित नहीं करने की सीमा तक)			
कुल		136,134.88	125,584.35
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई, 2021

एस. भाटिया

(मुख्यमंत एस. भाटिया)
महानिदेशक

संध्या शुक्ला

(संध्या शुक्ला)
वित्त आयुक्त

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION Balance Sheet as at 31st March, 2021


₹ in crore

Corpus / Capital Fund and Liabilities	Schedule	2020-21	2019-20
Corpus / Capital Fund	1	-	-
Reserves and Surplus	2	103,440.00	96,095.40
Earmarked / Endowment Funds	3	28,964.27	26,291.08
Secured Loans and Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans and Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities and Provisions	7	3,730.61	3,197.87
Total		136,134.88	125,584.35
Assets			
Fixed Assets	8	15,196.59	14,714.87
Investments-Earmarked / Endowment Funds	9	28,836.45	26,171.57
Investments-Non Earmarked / Endowment Funds	10	87,416.87	81,095.15
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	4,684.97	3,602.76
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)			
Total		136,134.88	125,584.35
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25		

Place: New Delhi
Date: 28th May, 2021



(Mukhmeet S. Bhatia)
Director General



(Sandhya Shukla)
Financial Commissioner



वार्षिक लेखे / 2020-21

कर्मचारी राज्य बीमा निगम 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

₹ करोड़ में

आय	अनुसूची	2020-21	2019-20
अंशदान से आय	12	13,787.79	16,744.56
अनुदान / सहायिकी	13	—	—
शुल्क / अभिदान	14	35.82	33.97
निवेश से आय (गैर उद्दिष्ट आरक्षित)	15	5,960.20	5,285.83
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	16	—	—
अर्जित ब्याज	17	13.64	12.36
अन्य आय	18	1,293.68	85.20
तैयार माल के स्टॉक और चल रहे कार्य में वृद्धि / (कमी)	19	—	—
कुल (क)		21,091.13	22,161.91
व्यय			
बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर व्यय	20	12,295.92	11,237.63
स्थापना खर्च	21	1,155.61	1,366.86
अन्य प्रशासनिक खर्च	22	273.61	322.30
अनुदान, सहायिकी इत्यादि पर व्यय	23	—	—
ब्याज		—	—
मूल्यह्रास	8	41.98	38.61
कुल (ख)		13,767.12	12,965.39
व्यय से अधिक आय होने पर शेष (क-ख)		7,324.01	9,196.52
पूर्वावधि मर्दे (निवल)	26	20.59	67.87
पूँजीगत निर्माण आरक्षित के लिए प्रावधान	2	—	—
विशेष आरक्षित में अंतरण (आकस्मिकता आरक्षित)	2	—	—
सामान्य आरक्षित कोष में / से अंतरण	2	—	—
अधिशेष के कारण शेष / (घाटा) को समग्र / पूँजी निधि / सामान्य आरक्षित में ले जाना		7,344.60	9,264.39
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24	—	—
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां	25	—	—

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई, 2021

एस. भाटिया

(मुख्यमंत एस. भाटिया)
महानिदेशक

संध्या
(संध्या शुक्ला)
वित्त आयुक्त

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Income and Expenditure Account for the Year Ended 31st March, 2021


₹ in crore

Income	Schedule	2020-21	2019-20
Income from contribution	12	13,787.79	16,744.56
Grants / subsidies	13	-	-
Fees / subscriptions	14	35.82	33.97
Income from investments (non-earmarked reserves)	15	5,960.20	5,285.83
Income from royalty, publication etc.	16		
Interest earned	17	13.64	12.36
Other income	18	1,293.68	85.20
Increase / (decrease) in stock of finished goods and works-in-progress	19		
Total (A)		21,091.13	22,161.91
Expenditure			
Expenditure on benefits to insured persons	20	12,295.92	11,237.63
Establishments expenses	21	1,155.61	1,366.86
Other administrative expenses	22	273.61	322.30
Expenditure on grants, subsidies etc.	23	-	-
Interest		-	-
Depreciation	8	41.98	38.61
Total (B)		13,767.12	12,965.39
Balance being excess of income over expenditure (a-b)		7,324.01	9,196.52
Prior period items (net)	26	20.59	67.87
Provision for capital construction reserve	2	-	-
Transfer to special reserve (contingency reserve)	2	-	-
Transfer to / from general reserve	2		
Balance being surplus / (deficit) carried to corpus / capital fund / general reserve		7,344.60	9,264.39
Significant accounting policies	24		
Contingent liabilities and notes on accounts	25		

Place: New Delhi
Date: 28th May, 2021



(Mukhmeet S. Bhatia)
Director General



(Sandhya Shukla)
Financial Commissioner



अनुसूची 1 – समग्र / पूंजी निधि

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
वर्ष के आरंभ में शेष	—	—
जोड़ : समग्र / पूंजी निधि के लिए अंशदान	—	—
जोड़ / (कटौती) : निवल आय / (व्यय) का शेष आय एवं व्यय लेखा से अंतरित	—	—
वर्ष के अंत में शेष	—	—

अनुसूची 2 – आरक्षितियां एवं अधिशेष

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
1. पूंजी आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	0.03	0.03
वर्ष के दौरान जोड़ (परिसंपत्तियां @ ₹ 1/- ओपनिंग बैलेंस शीट 2012-13 में)		
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां	0.00	(0.00)
उप-योग क	0.03	0.03
2. पुनर्मूल्यन आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान जोड़	—	—
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां	—	—
उप-योग ख	—	—
3. विशेष आरक्षित-आकस्मिकता आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	75.00	75.00
वर्ष के दौरान जोड़	—	—
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां		
उप-योग ग	75.00	75.00
4. सामान्य आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	75,072.84	65,808.44
वर्ष के दौरान जोड़	7,344.60	9,264.40
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतिया / अंतरण		
उप-योग घ	82,417.44	75,072.84
5. पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि		
पिछले लेखा के अनुसार	20,947.53	20,947.53
जोड़ : वर्ष के दौरान प्रावधान	—	—
जोड़ : वर्ष के दौरान जोड़ / अंतरण	—	—
घटाना : निधि से भुगतान		
उप-योग ङ	20,947.53	20,947.53
कुल (क + ख + ग + घ + ङ)	103,440.00	96,095.40

SCHEDULE 1 – CORPUS / CAPITAL FUND

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add: Contributions towards Corpus / Capital Fund	-	-
Add / (Deduct): Balance of net income / (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	-	-
BALANCE AT THE YEAR-END	-	-

SCHEDULE 2 – RESERVES AND SURPLUS

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
1. Capital Reserve:		
As per last Account	0.03	0.03
Addition during the year (Assets @ ₹ 1/- in Opening Balance Sheet 2012-13)		
Less: Deductions during the year	0.00	(0.00)
Sub - total A	0.03	0.03
2. Revaluation Reserve		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
Sub - total B	-	-
3. Special Reserve - Contingency Reserve		
As per last Account	75.00	75.00
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year		
Sub - total C	75.00	75.00
4. General Reserve		
As per last Account	75,072.84	65,808.44
Addition during the year	7,344.60	9,264.40
Less: Deductions / Transfer during the year		
Sub - total D	82,417.44	75,072.84
5. Capital Construction Reserve Fund		
As per last Account	20,947.53	20,947.53
Add : Provision during the year	-	-
Add : Other Additions / Transfer during the year	-	-
Less : Payment from the fund		
Sub - total E	20,947.53	20,947.53
TOTAL (A + B + C + D + E)	103,440.00	96,095.40

अनुसूची 3 – उद्दिष्ट निधियां निधिवार ब्योरा

₹ करोड़ में

शीर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
स्थायी निःशक्तता हितलाम आरक्षित निधि	आश्रित जन हितलाम आरक्षित निधि	मूल्यहास आरक्षित निधि - कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर	मूल्यहास आरक्षित निधि - अस्पताल और औषधालयों (स्टाफ क्वार्टर सहित)	मूल्यहास आरक्षित निधि - अन्य स्थायी परि संपत्तियाँ	मूल्यहास आरक्षित निधि - चिकित्सा शिक्षा भवन	कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि - पेंशन	कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि - उपदान	कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि - छुट्टी नकदी करण	कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि - पीएमएस	कर्मचारी राज्य बीमा मविष्य निधि	कुल चालू वर्ष (2019-20)	कुल चालू वर्ष (2020-21)	कुल चालू वर्ष (2019-20)
क) निधियों का आदि शेष	6,497.26	4,122.15	45.08	1,237.24	1,388.81	418.12	9,905.84	719.71	681.21	169.18	1,106.48	26,291.08	23,249.43
ख) निधियों में जोड़													
1. प्रावधान	1,849.52	(1,231.92)	5.59	79.31	310.06	167.03	495.93	110.04	113.96	30.91	168.91	2,099.34	2,616.67
2. निधियों के निवेश से आय	477.16	302.73	1.65	83.75	101.99	30.71	727.48	52.86	50.03	12.42	76.66	1,917.44	1,791.81
3. अन्य जोड़	-	-	-	-	-	-	1.26	-	-	2.16	-	3.42	9.76
कुल (क+ख)	8,823.94	3,192.96	52.32	1,400.30	1,800.86	615.86	11,130.51	882.61	845.20	214.67	1,352.05	30,311.28	27,667.67
ग) निधि के उद्देश्य हेतु उपयोग / ब्यय													
i. पूंजीगत व्यय													
नियत परिसंपत्तियां													
गैर उद्दिष्ट निधि को अंतरण													
ii. राजस्व व्यय													
निधि से बहिर्वाह	306.68	274.93	8.98	18.68	-	-	460.01	56.88	32.29	13.35	175.21	1,347.01	1,376.59
कुल (ग)	306.68	274.93	8.98	18.68	-	-	460.01	56.88	32.29	13.35	175.21	1,347.01	1,376.59
वर्ष के अंत में निवल शेष (क + ख + ग)	8,517.26	2,918.03	43.34	1,381.62	1,800.86	615.86	10,670.51	825.73	812.91	201.32	1,176.83	28,964.27	26,291.08

SCHEDULE 3 – EARMARKED FUNDS FUND – WISE BREAK UP

₹ in crore

Head	Permanent Disablement Benefit Reserve fund	Dependent's Benefit reserve fund	Depreciation Reserve Fund Office Building & Staff Quarters	Depreciation reserve fund - Hospital & Dispensaries (incl staff quarters)	Depreciation reserve fund - Other Fixed Assets	Depreciation reserve fund for Medical Education Building	Employees' Benefit Reserve Fund- Pension	Employees' Benefit Reserve Fund- Gratuity	Employees' Benefit Reserve Fund- Leave Encashment	Employees' Benefit Reserve Fund- Pensioners Medical Scheme	ESI Provident Fund	Total Current Year (2020-21)	Total Previous Year (2019-20)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Opening Balance	6,497.26	4,122.15	45.08	1,237.24	1,388.81	418.12	9,905.84	719.71	681.21	169.18	1,106.48	26,291.08	23,249.43
b) Additions to the Funds:													
i. Provisions	1,849.52	(1,231.92)	5.59	79.31	310.06	167.03	495.93	110.04	113.96	30.91	168.91	2,099.34	2,616.67
ii. Income from investments of fund	477.16	302.73	1.65	83.75	101.99	30.71	727.48	52.86	50.03	12.42	76.66	1,917.44	1,791.81
iii. Other additions	-	-	-	-	-	-	1.26	-	-	2.16	-	3.42	9.76
TOTAL (a+b)	8,823.94	3,192.96	52.32	1,400.30	1,800.86	615.86	11,130.51	882.61	845.20	214.67	1,352.05	30,311.28	27,667.67
c) Utilisation / Expenditure towards objectives of funds													
i. Capital Expenditure													
-Fixed Assets													
-Transfer to Non Earmarked Fund													
ii. Revenue Expenditure													
Outflow from the fund	306.68	274.93	8.98	18.68	-	-	460.01	56.88	32.29	13.35	175.21	1,347.01	1,376.59
TOTAL (c)	306.68	274.93	8.98	18.68	-	-	460.01	56.88	32.29	13.35	175.21	1,347.01	1,376.59
Net balance as at the year-end (a + b - c)	8,517.26	2,918.03	43.34	1,381.62	1,800.86	615.86	10,670.51	825.73	812.91	201.32	1,176.83	28,964.27	26,291.08



अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण एवं उधार

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
1. केन्द्रीय सरकार	—	—
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	—	—
3. वित्तीय संस्थाएं	—	—
क) आवधिक ऋण		
ख) प्रोद्भूत एवं देय ब्याज		
4. बैंक:	—	—
क) आवधिक ऋण		
— प्रोद्भूत एवं देय ब्याज		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
— प्रोद्भूत एवं देय ब्याज		
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	—	—
6. डिबैंचर एवं बॉन्ड	—	—
7. अन्य (उल्लेख करें)	—	—
कुल	—	—

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

SCHEDULE 4 – SECURED LOANS AND BORROWINGS

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions	-	-
a) Term Loans		
b) Interest accrued and due		
4. Banks:	-	-
a) Term Loans		
- Interest accrued and due		
b) Other Loans (specify)		
- Interest accrued and due		
5. Other Institutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-

Note: Amounts due within one year



अनुसूची 5 – प्रतिभूति रहित ऋण एवं उधार

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
1. केन्द्रीय सरकार	—	—
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	—	—
3. वित्तीय संस्थाएं	—	—
4. बैंक:	—	—
क) आवधिक ऋण		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	—	—
6. डिबेंचर एवं बॉन्ड	—	—
7. सावधि जमा	—	—
8. अन्य (उल्लेख करें)	—	—
कुल	—	—

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएं

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
क) पूंजीगत उपस्कर एवं अन्य परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	—	—
ख) अन्य	—	—
कुल	—	—

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

SCHEDULE 5 – UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions	-	-
4. Banks:	-	-
a) Term Loans		
b) Other Loans (specify)		
5. Other Institutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Fixed Deposits	-	-
8. Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-

Note: Amounts due within one year

SCHEDULE 6 – DEFERRED CREDIT LIABILITIES

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-
b) Other	-	-
TOTAL	-	-

Note: Amounts due within one year



अनुसूची 7 – वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
क. वर्तमान देयताएं		
1. स्वीकृतियां / विविध जमा	60.16	64.01
2. विविध देनदार	–	–
क) माल एवं सेवाओं हेतु	486.60	428.13
ख) सेवाएं (अति विशिष्टता उपचार)	515.21	487.00
3. प्राप्त पेशगियां	–	–
4. प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं	–	–
क) रक्षित ऋण / उधार	–	–
ख) प्रतिभूति रहित ऋण / उधार	–	–
5. सांविधिक देनदारियां	–	–
क) अतिदेय	–	–
ख) अन्य स्रोत पर काटा गया कर	11.99	23.68
ग) खाते पर देय	2,313.04	1,827.55
6. प्रतिभूति जमा तथा बयाना जमा	73.48	112.69
7. नई पेंशन योजना का अंशदान	42.50	41.41
8. क.रा.बी. निगम भविष्य निधि में दावा न की गई जमा राशियां	0.02	0.10
9. अन्य देयताएं	223.63	209.55
10. सामूहिक बचत संबद्ध बीमा योजना (जीएसएलआईएस)	3.98	3.77
कुल (क)	3,730.61	3,197.87
ख. प्रावधान		
1. कराधान हेतु	–	–
2. उपदान	–	–
3. अधिवर्षिता / पेंशन	–	–
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	–	–
5. व्यापार वारंटियां / दावे	–	–
6. लेखा परीक्षा शुल्क हेतु	–	–
7. अन्य	–	–
कुल (ख)	–	–
कुल (क + ख)	3,730.61	3,197.87

1) क्र.सं. क – 2 (क) में माल की खरीद के लिए देय राशि शामिल है जिसे स्टॉक में लिया गया है।

2) क्र.सं. क – 7 में अन्य सभी मौजूदा देनदारियां शामिल हैं जैसे टेलीफोन शुल्क, बिजली, किराए आदि के लिए बकाया भुगतान।

SCHEDULE 7 – CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances / Misc. Deposits	60.16	64.01
2. Sundry Creditors:	-	-
a) For Goods & Services	486.60	428.13
b) Services (SST)	515.21	487.00
3. Advances Received	-	-
4. Interest accrued but not due on:	-	-
a) Secured Loans / borrowings	-	-
b) Unsecured Loans / borrowings	-	-
5. Statutory Liabilities:	-	-
a) Overdue	-	-
b) Others - T. D. S.	11.99	23.68
c) On Account Payable	2,313.04	1,827.55
6. Security Deposits & EMD	73.48	112.69
7. Contribution of New Pension Sheme	42.50	41.41
8. Unclaimed Deposit in ESIC P.F.	0.02	0.10
9. Other liabilities	223.63	209.55
10. Group Saving Linked Insurance Scheme (GSLIS)	3.98	3.77
TOTAL (A)	3,730.61	3,197.87
B. PROVISIONS		
1. For Taxation	-	-
2. Gratuity	-	-
3. Superannuation / Pension	-	-
4. Accumulated Leave Encashment	-	-
5. Trade Warranties / Claims	-	-
6. For Audit fees	-	-
7. Others	-	-
TOTAL (B)	-	-
TOTAL (A + B)	3,730.61	3,197.87

1) Sl. No. A - 2 (a) includes amount payable towards purchase of goods which have been taken into stock.

2) Sl. No. A - 7 includes all other current liabilities like outstanding payments towards telephone charges, electricity, rent, etc.

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियाँ

₹ करोड़ में

विवरण	समग्र खंड			मूल्यहास				निवल खंड	
	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / अतरण	वर्ष की समाप्ति पर लागत / मूल्यांकन	वर्ष की शुरुआत में लागत मूल्यांकन	वर्ष की शुरुआत में स्थिति	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियों पर		वर्ष की समाप्ति पर कुल
भूमि :									
क) पूर्ण स्वामित्वाधीन	115.58	55.11	170.69						170.69
ख) पट्टाधृति	25.09	0.08	25.17						25.17
भवन :									
क) कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टर	485.13	4.07	489.20	57.70	57.70	5.59	63.29	63.29	425.91
ख) अस्पताल एवं औषधालय	2,159.30	575.19	2,734.49	474.58	474.58	79.31	553.89	553.89	2,180.60
ग) चिकित्सा शिक्षा भवन	5,854.14	—	5,854.14	409.36	409.36	167.03	576.39	576.39	5,277.75
घ) स्वामित्व वाले प्लैट/परिसर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से स्वामिती (क.रा.बी. निगम हिस्सा)	0.09	—	0.09	—	—	—	—	—	0.09
च) इकाई से असंबंधित भूमि पर अधिचरना	—	—	—	—	—	—	—	—	—
संयंत्र मशीनरी एवं उपस्कर	1,540.33	81.37	1,621.70	389.57	389.57	102.96	492.53	492.53	1,129.17
वाहन	2.45	0.28	2.73	1.48	1.48	0.19	1.67	1.67	1.06
फर्नीचर, जुड़नार	549.80	7.77	557.57	276.26	276.26	166.04	442.30	442.30	115.27
कार्यालय उपस्कर	37.00	7.36	44.36	22.33	22.33	5.58	27.91	27.91	16.45
कम्प्यूटर / सहायक उपकरण	519.94	26.50	546.44	342.18	342.18	35.23	377.41	377.41	169.03
बिजली के संस्थापन	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पुस्तकालय की पुस्तकें	9.17	0.62	9.79	5.24	5.24	0.56	5.80	5.80	3.99
नलकूप एवं जलापूर्ती	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अन्य स्थायी परिसंपत्तियाँ – चिकित्सा शिक्षा	0.22	—	0.22	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08	0.14
एक रुपये की दर से ओ.बी.एस. में परिसंपत्तियाँ	0.03	(0.00)	(0.00)	—	—	—	—	—	0.03
मौजूदा वर्ष का कुल	11,298.27	758.35	12,056.62	1,978.78	1,978.78	562.49	2,541.27	2,541.27	9,515.35
पिछला वर्ष	9,096.04	2,202.23	11,298.27	1,429.18	1,429.18	549.60	1,978.78	1,978.78	9,319.49
पूजीगत कार्य प्रगति पर	3,416.60	302.62	3,719.22	—	—	—	—	—	3,139.96
कुल	14,714.87	1,060.97	15,775.84	1,978.78	1,978.78	562.49	2,541.27	2,541.27	12,655.31

₹ 562.48 करोड़ के कुल मूल्यहास में ₹ 149.75 करोड़ का मूल्यहास चिकित्सा स्थापनाओं पर अवस्थित स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित है, ₹ 370.75 करोड़ चिकित्सा शिक्षा से संबंधित है तथा ₹ 41.98 करोड़ रुपये प्रशासनिक कार्यालयों में स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित है। चिकित्सा स्थापनाओं तथा चिकित्सा शिक्षा का मूल्यहास अनुसूची 20 क तथा 20 घ में प्रस्तुत किया गया है तथा प्रशासनिक कार्यालयों में परिसंपत्तियों पर मूल्यहास आय एवं व्यय लेखा में दर्शाया गया है।

₹ in crore

SCHEDULE 8 – FIXED ASSETS

DESCRIPTION	GROSS BLOCK			DEPRECIATION			NET BLOCK		
	Cost valuation As at beginning of the year	Additions during the year	Deductions / Transfer during the year	Cost / valuation at the year-end	As at the beginning of the year	During The year		On. Deductions During the year	Total up to year end
Land:									
A) Freehold	115.58	55.11	-	170.69	-	-	-	-	170.69
B) Leasehold	25.09	0.08	-	25.17	-	-	-	-	25.17
Buildings:									
A) Office building & staff qtrs.	485.13	4.07	-	489.20	57.70	5.59	-	63.29	425.91
B) Hospitals & dispensaries	2,159.30	575.19	-	2,734.49	474.58	79.31	-	553.89	2,180.60
C) Medical education building	5,854.14	-	-	5,854.14	409.36	167.03	-	576.39	5,277.75
D) Ownership flats/premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) Jointly owned with state govt (esic share)	0.09	-	-	0.09	-	-	-	-	0.09
F) Superstructures on land not belonging to the entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plants machinery & equipments	1,540.33	81.37	-	1,621.70	389.57	102.96	-	492.53	1,129.17
Vehicles	2.45	0.28	-	2.73	1.48	0.19	-	1.67	1.06
Furniture, fixtures	549.80	7.77	-	557.57	276.26	166.04	-	442.30	115.27
Office equipment	37.00	7.36	-	44.36	22.33	5.58	-	27.91	16.45
Computer / peripherals	519.94	26.50	-	546.44	342.18	35.23	-	377.41	169.03
Electric installations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Library books	9.17	0.62	-	9.79	5.24	0.56	-	5.80	3.99
Tubewells & w. Supply	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other fixed assets- medical education	0.22	-	-	0.22	0.08	0.00	-	0.08	0.14
Assets in obs @ ₹ 1	0.03	(0.00)	(0.00)	0.03	-	-	-	-	0.03
Total of current year	11,298.27	758.35	(0.00)	12,056.62	1,978.78	562.49	-	2,541.27	9,515.35
Previous year	9,096.04	2,202.23	-	11,298.27	1,429.18	549.60	-	1,978.78	9,319.49
Capital work-in progress	3,416.60	302.62	579.26	3,139.96	-	-	-	-	3,139.96
Total	14,714.87	1,060.97	579.26	15,196.58	1,978.78	562.49	-	2,541.27	12,655.31

Out of the total depreciation of ₹ 562.48 Crores, depreciation to the tune of ₹ 149.75 Crore pertains to fixed assets located at medical establishments, ₹ 370.75 Crores pertains to Medical Education and ₹ 41.98 Crores pertain to fixed assets at Administrative Offices. The depreciation of Medical Establishments and Medical Education has been presented in Schedule 20 A and 20 D and Depreciation on assets at Administrative offices is shown in Income & Expenditure Account.



अनुसूची 9 – उद्दिष्ट निधियों से निवेश

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	15,147.24	15,661.67
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1,413.56	1,555.78
3. शेयर		
4. डिबेंचर एवं बॉन्ड	7,824.59	2,671.04
5. समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6. अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के पास सावधि जमा तथा एस.डी.ए.	4,451.06	6,283.08
कुल	28,836.45	26,171.57

(संलग्नक-I के अनुसार ब्योरा)

अनुसूची 10 – निवेश – सामान्य आरक्षित निधियां / अन्य निधियां

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	46,935.20	46,198.27
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	4,380.04	4,589.17
3. शेयर		
4. डिबेंचर एवं बॉन्ड	22,309.58	7,878.96
5. समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6. अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के पास सावधि जमा तथा एस.डी.ए.	13,792.05	22,428.75
कुल	87,416.87	81,095.15

(संलग्नक-II के अनुसार ब्योरा)

SCHEDULE 9 – INVESTMENTS FROM EARMARKED FUNDS

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
1. In Government Securities	15,147.24	15,661.67
2. Other approved Securities	1,413.56	1,555.78
3. Shares		
4. Debentures and Bonds	7,824.59	2,671.04
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Fixed Deposits with Scheduled Commercial Banks & SDA	4,451.06	6,283.08
TOTAL	28,836.45	26,171.57

(Detail as per Annexure-I)

SCHEDULE 10 – INVESTMENTS – GENERAL RESERVE FUNDS / OTHER FUNDS

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
1. In Government Securities	46,935.20	46,198.27
2. Other approved Securities	4,380.04	4,589.17
3. Shares		
4. Debentures and Bonds	22,309.58	7,878.96
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Fixed Deposits with Scheduled Commercial Banks & SDA	13,792.05	22,428.75
TOTAL	87,416.87	81,095.15

(Detail as per Annexure-II)



अनुसूची 11 – वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा पेशागियां आदि

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
क. वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
1. वस्तु-सूची		
क) भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	137.00	127.15
ख) फुटकर औजार	—	—
ग) कारोबारी माल	—	—
— तैयार माल	—	—
— चल रहा कार्य	—	—
— कच्चा माल	—	—
2. विविध देनदार	—	—
क) छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया देनदारियां	—	—
ख) अन्य	—	—
3. नकद राशि (चेक / ड्राफ्ट सहित)	0.03	0.03
4. बैंक में शेष	—	—
क) अनुसूचित बैंकों के पास	—	—
— चालू खातों पर	—	—
— जमा खातों पर (मुनाफा शामिल है)	—	—
— बचत खातों पर	50.91	16.93
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के पास	—	—
— चालू खातों पर	—	—
— जमा खातों पर	—	—
— बचत खातों पर	—	—
5. डाकघर-बचत खाता	—	—
6. धनप्रेषण	305.47	165.22
कुल (क)	493.41	309.33

- क्र.सं. 1 (क) में दिनांक 31 मार्च तक के अनुसार दवाएं, प्रयोगशाला वस्तुएं, शल्य चिकित्सा उपस्कर, वर्दियां, चादरें (गद्दे सहित), बर्तन तथा कटलरी, एक्स-रे फिल्में तथा मशीनरी पुर्जों के अलावा अतिरिक्त पुर्जे शामिल हैं।
- क्र.सं. 1 (ख) में भंडार में उपलब्ध वस्तुएं शामिल हैं जो उपस्करों को जोड़ने हेतु उपयोगी हैं जैसे स्पैनर, जिग्स, जैक आदि, शामिल हैं।
- चूंकि लेखन सामग्री, मुद्रित प्रपत्र तथा रजिस्टर और गृह प्रबंधन वस्तुएं उपभोग्य वस्तुएं हैं तथा इसके भौतिकता (मैटिरियलिटी) को देखते हुए इन्हें वस्तु सूची में नहीं माना जाता है।

SCHEDULE 11 – CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
A. CURRENT ASSETS:		
1. Inventories:		
a) Stores and Spares	137.00	127.15
b) Loose Tools	-	-
c) Stock-in-trade	-	-
- Finished Goods	-	-
- Work-in-progress	-	-
- Raw Materials	-	-
2. Sundry Debtors:	-	-
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	-	-
b) Others	-	-
3. Cash in hand (including cheques / drafts)	0.03	0.03
4. Bank Balances:	-	-
a) With Scheduled Banks:	-	-
- On Current Accounts	-	-
- On Deposit Accounts (includes margin money)	-	-
- On Savings Accounts	50.91	16.93
b) With non-Scheduled Banks:	-	-
- On Current Accounts	-	-
- On Deposit Accounts	-	-
- On Savings Accounts	-	-
5. Post Office - Savings Accounts	-	-
6. Remittances	305.47	165.22
TOTAL (A)	493.41	309.33

- Sl. No.1 (a) includes stock of medicines, lab items, surgical equipments, liveries, linens (including mattresses), utensils & cutleries, X-ray films & spare parts other than machinery spares as on 31st March
- Sl. No. 1 (b) includes the items that are available in the stores which are useful for assembly of equipments, like spanners, jigs, jacks, etc.
- Stationeries, printed forms and Registers and housekeeping items are not considered as inventories, as they are consumables and considering the materiality.



अनुसूची 11 – वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, पेशगियां इत्यादि (जारी)

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
ख. ऋण, पेशगियां एवं अन्य परिसंपत्तियाँ		
1. ऋण :		
क) कर्मचारिवृन्द	–	–
ख) उस इकाई के समान गतिविधियों / लक्ष्यों में कार्यरत अन्य संस्थाएं	–	–
ग) अन्य – राज्य सरकार को	–	–
कुल	–	–
2. नकदी में समायोज्य / वसूली योग्य पेशगियाँ तथा अन्य राशियाँ		
क) पूंजीगत लेखा पर		
ख) पूर्व अदायगियां	4.23	4.31
ग) कार्यालय प्रमुखों को स्थायी पेशगी	1.48	1.42
घ) कर्मचारियों के स्थानांतरण पर वेतन की पेशगियां	(0.06)	(0.59)
ङ) कर्मचारियों को मोटर वाहन पेशगी	(1.18)	(1.12)
च) गृह निर्माण अग्रिम	2.07	0.81
छ) त्योहार / पंखा / बाढ़ पेशगियां	2.43	0.87
ज) कम्प्यूटर पेशगी	3.20	2.27
झ) अन्य विविध पेशगियाँ	429.70	357.82
न) स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता / छुट्टी यात्रा रियायत / दैनिक भत्ता अग्रिम	13.48	13.43
कुल	455.35	379.22
3. अस्पताल / औषधालयों / कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव / विशेष मरम्मत हेतु पेशगी		
क) मरम्मत एवं रखरखाव – कार्यालय भवन	22.03	20.89
ख) मरम्मत एवं रखरखाव – अस्पताल एवं औषधालय	51.07	36.36
ग) विशेष मरम्मत – कार्यालय भवन	26.77	22.59
घ) विशेष मरम्मत – अस्पताल एवं औषधालय	100.95	96.82
कुल	200.82	176.66
4. प्रोद्भूत आय :		
क) निवेश पर	2,185.81	2,124.65
ख) ऋण एवं पेशगियों पर	–	–
ग) अंशदान प्राप्य	1,316.06	611.12
(.....रुपये की अप्राप्य देय आय शामिल है)		
कुल	3,501.87	2,735.77
5. प्राप्ति योग्य दावे	33.52	1.78
कुल (ख)	4,191.56	3,293.43
कुल (क + ख)	4,684.97	3,602.76

SCHEDULE 11 – CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. Loans:		
a) Staff	-	-
b) Other Entities engaged in activities / objectives similar to that of the Entity	-	-
c) Other -To State Govt.	-	-
TOTAL	-	-
2. Advances and other amounts adjustable / recoverable in cash		
a) On Capital Account		
b) Prepayments	4.23	4.31
c) Permanent advance to Heads of the Office	1.48	1.42
d) Advances of pay on transfer of employees	(0.06)	(0.59)
e) Advances on motor conveyance to employees	(1.18)	(1.12)
f) House Building advance	2.07	0.81
g) Festival / Fan / Flood advances	2.43	0.87
h) Computer advance	3.20	2.27
i) Other Misc. advances	429.70	357.82
j) Advance of TA / LTC / DA on transfer	13.48	13.43
TOTAL	455.35	379.22
3. Advance towards Repair & Maintenance / Special Repair of Hospital / Dispensaries / Office Building :		
a) Repair & Maint-Office Building	22.03	20.89
b) Repair & Maint-Hospital & Disp	51.07	36.36
c) Special Repair-Office Building	26.77	22.59
d) Special Repair-Hospital & Disp.	100.95	96.82
TOTAL	200.82	176.66
4. Income Accrued:		
a) On Investments	2,185.81	2,124.65
b) On Loans and Advances	-	-
c) Contribution Receivables (Includes income due unrealized-Rs.....)	1,316.06	611.12
TOTAL	3,501.87	2,735.77
5. Claims Receivable	33.52	1.78
TOTAL (B)	4,191.56	3,293.43
Total (A + B)	4,684.97	3,602.76



अनुसूची 12 – अंशदान / बिक्री / सेवा से आय

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
1) अंशदान से आय		
क) अंशदान	13,770.31	16,702.96
ख) अंशदान पर ब्याज	17.48	41.60
2) सेवाओं से आय	–	–
क) श्रम और प्रक्रमण प्रभार	–	–
ख) व्यावसायिक / परामर्श सेवा	–	–
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली	–	–
घ) अनुरक्षण सेवाएं (यंत्र / सम्पत्ति)	–	–
ङ) चिकित्सा सेवाओं के लिए सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों से प्राप्त राशि	–	–
कुल	13,787.79	16,744.56

अनुसूची 13 – अनुदान / सहायिकी (प्राप्त किए गए अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं सहायिकियां)

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
1) केन्द्र सरकार	–	–
2) राज्य सरकार (रें)	–	–
3) सरकारी एजेंसियां	–	–
4) संस्थाएं / कल्याण निकाय	–	–
5) अंतरराष्ट्रीय संगठन	–	–
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–
कुल	–	–

SCHEDULE 12 – INCOME FROM CONTRIBUTIONS / SALES / SERVICE

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
1) Income from Contribution		
a) Contribution	13,770.31	16,702.96
b) Interest on Contribution	17.48	41.60
2) Income from Services	-	-
a) Labour and Processing Charges	-	-
b) Professional / Consultancy Service	-	-
c) Agency Commission and Brokerage	-	-
d) Maintenance Services (Equipment / Property)	-	-
e) Amt received from retired IPs towards medical services	-	-
Total	13,787.79	16,744.56

SCHEDULE 13 – GRANTS / SUBSIDIES

(Irrevocable Grants & Subsidies Received)

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
1) Central Government	-	-
2) State Government (s)	-	-
3) Government Agencies	-	-
4) Institutions / Welfare Bodies	-	-
5) International Organisations	-	-
6) Others (Specify)	-	-
Total	-	-



अनुसूची 14 – शुल्क / अभिदान

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
1) प्रवेश / दाखिला शुल्क	29.96	23.93
2) वार्षिक शुल्क / अभिदान	–	–
3) संगोष्ठी / कार्यक्रम शुल्क	–	–
4) परामर्श शुल्क	–	–
5) अन्य	5.86	10.04
कुल	35.82	33.97

अनुसूची 15 – निवेश से आय

(निधियों में अंतरित उद्दिष्ट निधियों से निवेश पर आय)

	उद्दिष्ट निधि के निवेश से*		निवेश – गैर – उद्दिष्ट निधियां**	
	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
1) ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	1248.00	686.31	3867.04	1,689.25
ख) अन्य बांड / डिबेंचर	219.53	72.01	680.24	177.25
ग) अन्य प्रतिभूतियाँ	73.13	109.01	226.61	268.33
घ) बैंक मियादी जमा एवं एस.डी.ए.	376.78	924.48	1,186.31	3,151.00
कुल	1,917.44	1,791.81	5,960.20	5,285.83
2) लाभांश				
क) शेयर पर				
ख) म्यूच्युअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3) अन्य				
सकल योग	1,917.44	1,791.81	5,960.20	5,285.83
उद्दिष्ट निधियों को अंतरण	1,917.44	1,791.81		

*संलग्नक – I के अनुसार ब्योरा

**संलग्नक – II के अनुसार ब्योरा

SCHEDULE 14 – FEES / SUBSCRIPTIONS

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
1) Entrance / Admission Fees	29.96	23.93
2) Annual Fees / Subscriptions	-	-
3) Seminar / Program Fees	-	-
4) Consultancy Fees	-	-
5) Others	5.86	10.04
Total	35.82	33.97

SCHEDULE 15 – INCOME FROM INVESTMENTS

(Income on Investment from Earmarked Funds transferred to Funds)

	Investment from Earmark Fund*		Investment- Non Earmarked Funds**	
	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
1) Interest				
a) On Govt. Securities	1248.00	686.31	3867.04	1,689.25
b) Other Bonds / Debentures	219.53	72.01	680.24	177.25
c) Others securities	73.13	109.01	226.61	268.33
d) Bank Fixed Deposits & SDA	376.78	924.48	1,186.31	3,151.00
Total	1,917.44	1,791.81	5,960.20	5,285.83
2) Dividends:				
a) On Shares				
b) On Mutual Fund Securities				
3) Others				
Grand Total	1,917.44	1,791.81	5,960.20	5,285.83
TRANSFERRED TO EARMARKED FUNDS	1,917.44	1,791.81		

* Details as per Annexure -I

** Details as per Annexure -II



अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
1) रॉयल्टी से आय		
2) प्रकाशन से आय		
3) अन्य		
कुल		

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
1) सावधिक जमा पर :		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ		
ग) संस्थाओं के साथ		
घ) अन्य		
2) बचत खातों पर :		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	13.44	11.98
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	—	—
ग) संस्थाओं के साथ	—	—
घ) अन्य	—	—
3) ऋण / अग्रिम :		
क) कर्मचारी / स्टॉफ	0.20	0.38
ख) अन्य	—	—
4) देनदारों और अन्य प्राप्यों पर ब्याज	—	—
कुल	13.64	12.36

नोट – स्रोत पर काटे गए कर का उल्लेख किया जाए

SCHEDULE 16 – INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
1) Income from Royalty		
2) Income from Publications		
3) Others		
Total		

SCHEDULE 17 – INTEREST EARNED

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
1) On Term Deposits:		
a) With Scheduled Banks		
b) With Non-Scheduled Banks		
c) With Institutions		
d) Others		
2) On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks	13.44	11.98
b) With Non-Scheduled Banks	-	-
c) With Institutions	-	-
d) Others	-	-
3) On Loans / advances:		
a) Employees / Staff	0.20	0.38
b) Others	-	-
4) Interest on Debtors and Other Receivables	-	-
Total	13.64	12.36

Note- Tax deducted at source to be indicated

अनुसूची 18- अन्य आय

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
1) परिसंपत्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ		
क) मालिकाना परिसंपत्तियां		
ख) अनुदान से अभिगृहीत या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां		
2) राज्य सरकार से निर्यात प्रोत्साहन वसूली / प्रतिपूर्ति	-	-
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क (चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां)	-	-
4) विविध आय	1,257.61	31.04
5) किराया, दर और कर	4.91	5.47
6) शुल्क, जुर्माना तथा जब्तियां, हर्जाना	31.16	48.68
7) राज्य सरकार / दिल्ली प्रशासन का हिस्सा	-	-
8) असंगठित क्षेत्र से अंशदान	0.00	0.02
कुल	1,293.68	85.20

अनुसूची 19 – तैयार माल के स्टॉक तथा चल रहे कार्य में वृद्धि / (कमी)

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
क) शेष स्टॉक		
- तैयार माल		
- चल रहा कार्य		
ख) घटाएं: प्रारंभिक स्टॉक		
- तैयार माल		
- चल रहा कार्य		
निवल वृद्धि / (कमी) (क - ख)		

SCHEDULE 18 – OTHER INCOME

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
1) Profit on Sale / disposal of Assets:		
a) Owned assets		
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
2) Export Incentives realized / Compensation from State Govt.	-	-
3) Fees for Miscellaneous Services (Medical Education Receipts)	-	-
4) Miscellaneous Income	1,257.61	31.04
5) Rent, Rates and Taxes	4.91	5.47
6) Fee, Fine & Forfeitures, Damages	31.16	48.68
7) State Govts. / Delhi Admn's share	-	-
8) Contribution from Unorganized Sector	0.00	0.02
TOTAL	1,293.68	85.20

SCHEDULE 19 – INCREASE / (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
a) Closing stock		
- Finished Goods		
- Work-in-progress		
b) Less: Opening Stock		
- Finished Goods		
- Work-in-progress		
NET INCREASE / (DECREASE) [A - B]		



अनुसूची 20 – बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर व्यय

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
अनुसूची 20-क चिकित्सा हितलाभ		
1) क.रा.बी. निगम के हिस्से के खर्च के रूप में राज्य सरकार / सोसायटी को भुगतान	3,926.44	3,573.18
2) निम्नलिखित प्रदान करने पर प्रत्यक्ष खर्च की गई राशि :-		
(क) क.रा.बी.निगम द्वारा अपने अस्पतालों / औषधालयों / व्यवसायजन्य रोग केन्द्रों में चिकित्सा देखरेख और मातृत्व सुविधाएं		
(i) वेतन एवं भत्तों पर	2,166.24	2,063.48
(ii) अन्य प्रशासनिक व्यय पर	421.85	434.39
(iii) औषधियों एवं मरहमपट्टी पर	622.55	678.34
(iv) अपशेष प्रबंधन	0.36	2.97
उप कुल (क)	3,211.01	3,179.18
(ख) बीमाकृत महिला एवं बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी को प्रसवावस्था खर्च	3.83	4.68
(ग) अति विशिष्टता उपचार	1,231.82	1,382.81
(घ) द्वितीयक देखरेख	193.48	256.28
(ङ) नियोक्ता उपयोग औषधालय	1.21	0.73
3) मूल्यह्रास (अस्पताल एवं औषधालय पर)	149.75	122.34
4) मरम्मत एवं रखरखाव-अस्पताल तथा औषधालय भवन	169.70	188.92
5) अस्पताल तथा औषधालय के लिए दर और कर	25.48	31.98
कुल - क	8,912.71	8,740.10

SCHEDULE 20 – EXPENDITURE ON BENEFITS TO INSURED PERSONS

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
SCHEDULE 20 - A MEDICAL BENEFITS		
1) Payments to State Governments / Society as ESIC's share of expenditure	3,926.44	3,573.18
2) Expenditure incurred directly on providing:		
(a) Medical care & maternity facilities by ESIC in own Hospitals , Dispensaries / ODC:		
(i) On Pay & Allowances	2,166.24	2,063.48
(ii) On Other Administrative expenditure	421.85	434.39
(iii) On Drugs & Dressings	622.55	678.34
(iv) On Waste Management	0.36	2.97
Sub - Total (a)	3,211.01	3,179.18
(b) Confinement expenses to insured women & wives of IP	3.83	4.68
(c) Super Specialities Treatment	1,231.82	1,382.81
(d) Secondary Care	193.48	256.28
(e) Employer Utility Dispensary	1.21	0.73
3) Depreciation (Hospital & Dispensaries)	149.75	122.34
4) Repairs & Maintenance - Hospital & Dispensary Buildings	169.70	188.92
5) Rates & Taxes for Hospital & Dispensaries	25.48	31.98
Total A	8,912.71	8,740.10



अनुसूची 20 ख – नकद हितलाभ

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
1) बीमारी हितलाभ	289.90	396.89
2) वर्धित बीमारी हितलाभ	0.03	0.09
3) विस्तारित बीमारी हितलाभ	49.61	54.37
4) प्रसूति हितलाभ	390.04	383.62
5) निःशक्तता हितलाभ		
क) अस्थायी	82.65	92.91
ख) स्थायी (पूँजीकृत मूल्य)	1,849.52	502.45
6) आश्रितजन हितलाभ (पूँजीकृत मूल्य)	–	403.53
7) अंत्येष्टि खर्च	27.80	23.80
8) राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (बेरोजगारी भत्ता)	13.17	9.51
9) अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	59.17	0.05
कुल – ख	2,761.89	1,867.22

अनुसूची 20 ग – अन्य हितलाभ

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
1) चिकित्सा बोर्ड और अपीलीय अधिकरण	0.29	0.49
2) बीमाकृत व्यक्ति को सवारी खर्च के लिए भुगतान	1.17	1.41
3) मजदूरी की हानि	0.06	0.10
4) विविध	1.88	0.11
कुल – ग	3.40	2.11

SCHEDULE 20 B – CASH BENEFITS

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
1) Sickness Benefit	289.90	396.89
2) Enhanced Sickness Benefit	0.03	0.09
3) Extended Sickness Benefit	49.61	54.37
4) Maternity Benefit	390.04	383.62
5) Disablement Benefit:		
a) Temporary	82.65	92.91
b) Permanent (capitalised value)	1,849.52	502.45
6) Dependent's Benefit (Capitalised value)	-	403.53
7) Funeral Expenses	27.80	23.80
8) Rajiv Gandhi Sharmik Kalyan Yagna (Unemployment Allowance)	13.17	9.51
9) Atal Bimit Vyakti Kalyan Yagna	59.17	0.05
Total B	2,761.89	1,867.22

SCHEDULE 20 C – OTHER BENEFITS

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
1) Medical Board and Appeal Tribunals	0.29	0.49
2) Payment to Insured persons towards conveyance charges	1.17	1.41
3) Loss of wages	0.06	0.10
4) Miscellaneous	1.88	0.11
Total C	3.40	2.11



अनुसूची 20 घ – चिकित्सा शिक्षा

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
1) वेतन एवं भत्ते	226.37	217.78
2) अन्य प्रशासनिक खर्च	17.79	19.52
3) मूल्यह्रास चिकित्सा शिक्षा	370.75	388.65
4) मरम्मत एवं रखरखाव चिकित्सा शिक्षा भवन	3.01	2.25
कुल-घ	617.92	628.20
कुल (क + ख + ग + घ)	12,295.92	11,237.63

SCHEDULE 20 D – MEDICAL EDUCATION

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
1) Pay & Allowances	226.37	217.78
2) Other Administrative Expenses	17.79	19.52
3) Depreciation - Medical Education	370.75	388.65
4) Repairs & Maintenance - Medical Education buildings	3.01	2.25
Total D	617.92	628.20
TOTAL (A + B + C + D)	12,295.92	11,237.63



अनुसूची 21 क – स्थापना खर्च – अधीक्षण

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
क) वेतन और मजदूरी	330.07	333.98
ख) भत्ते	170.47	167.99
ग) बोनस	9.18	8.55
घ) नई पेंशन योजना में क.रा.बी.निगम हिस्सा	–	–
ङ) जी.एस.एल.आई.एस में क.रा.बी.निगम हिस्सा	–	–
च) कर्मचारिवृन्द कल्याण खर्च	1.41	3.06
छ) कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभों पर खर्च	–	–
ज) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	–	–
झ) अनुकम्पा अनुदान	–	–
न) भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना	–	–
उप-योग (क)	511.13	513.58

अनुसूची 21 ख – स्थापना खर्च – क्षेत्र कार्य

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
क) वेतन और मजदूरी	117.82	117.97
ख) भत्ते	53.73	52.06
ग) बोनस	3.85	3.52
घ) नई पेंशन योजना में क.रा.बी.निगम हिस्सा	–	–
ङ) जी.एस.एल.आई.एस में क.रा.बी.निगम हिस्सा	–	–
च) कर्मचारिवृन्द कल्याण खर्च	0.08	0.11
छ) कर्मचारी हितलाभों पर खर्च	–	–
ज) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	–	–
झ) अनुकम्पा अनुदान	–	–
न) भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना	–	–
उप-योग (ख)	175.48	173.66

SCHEDULE 21 A – ESTABLISHMENT EXPENSES – SUPERINTENDENTS

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
a) Salaries and Wages	330.07	333.98
b) Allowances	170.47	167.99
c) Bonus	9.18	8.55
d) ESIC share of NPS	-	-
e) ESIC share of GSLIS	-	-
f) Staff Welfare Expenses	1.41	3.06
g) Expenses on Employees Retirement and Terminal Benefits	-	-
h) Leave salary & Pension contribution	-	-
i) Compassionate grants	-	-
j) PF Deposit Linked Insurance Scheme	-	-
SUB - TOTAL (A)	511.13	513.58

SCHEDULE 21 B – ESTABLISHMENT EXPENSES – FIELD WORK

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
a) Salaries and Wages	117.82	117.97
b) Allowances	53.73	52.06
c) Bonus	3.85	3.52
d) ESIC share of NPS	-	-
e) ESIC share of GSLIS	-	-
f) Staff Welfare Expenses	0.08	0.11
g) Expenses on Employees Benefits	-	-
h) Leave salary & Pension contribution	-	-
i) Compassionate grants	-	-
j) PF Deposit Linked Insurance Scheme	-	-
SUB - TOTAL (B)	175.48	173.66



अनुसूची 21 – स्थापना खर्च

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
क) वेतन और मजदूरी	447.89	451.95
ख) भत्ते	224.20	220.05
ग) बोनस	13.03	12.07
घ) कर्मचारिवृन्द कल्याण खर्च	1.49	3.17
ङ) कर्मचारी हितलाभों पर खर्च	–	0.00
च) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	–	0.05
छ) अनुकम्पा अनुदान	–	0.00
ज) भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना	0.10	0.05
झ) प्रावधान :-		
i) पेंशन	314.63	547.53
ii) उपदान	37.95	19.99
iii) छुट्टी नकदीकरण	39.90	48.55
iv) पेंशनभोगी चिकित्सा योजना	30.91	21.70
न) नई पेंशन योजना में क.रा.बी. निगम का अंश	45.39	41.57
ट) सामूहिक बचत संबद्ध बीमा योजना का क.रा.बी. निगम का अंश	0.12	0.18
कुल (क + ख)	1,155.61	1,366.86

SCHEDULE 21 – ESTABLISHMENT EXPENSES

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
a) Salaries and Wages	447.89	451.95
b) Allowances	224.20	220.05
c) Bonus	13.03	12.07
d) Staff Welfare Expenses	1.49	3.17
e) Expenses on Employees Benefits	-	0.00
f) Leave salary & Pension contribution	-	0.05
g) Compassionate grants	-	0.00
h) PF Deposit Linked Insurance Scheme	0.10	0.05
i) Provision for :-		
i) Pension	314.63	547.53
ii) Gratuity	37.95	19.99
iii) Leave Encashment	39.90	48.55
iv) Pensioners Medical Scheme	30.91	21.70
j) ESIC share of New Pension Scheme	45.39	41.57
k) ESIC share of GSLIS	0.12	0.18
TOTAL (A + B)	1,155.61	1,366.86



अनुसूची 22 – अन्य प्रशासनिक खर्च

	2020-21 (करोड़ में)	2019-20 (करोड़ में)
(i) विद्युत और शक्ति	18.43	20.36
(ii) जल प्रभार	1.44	1.36
(iii) बीमा	0.56	0.94
(iv) किराया, पौरकर और कर	36.75	39.44
(v) वाहन चालन और मरम्मत (भाड़ा प्रभार सहित)	3.17	4.04
(vi) डाकखर्च, टेलीफोन और संचार प्रभार	7.31	7.60
(vii) छपाई और लेखन सामग्री	4.09	6.73
(viii) यात्रा और सवारी खर्च	6.67	14.24
(ix) अभिदान खर्च-आवधिक	0.16	0.27
(x) बाह्य लेखापरीक्षा शुल्क	0.09	0.06
(xi) आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	0.00	—
(xii) परामर्श सेवा व्यय	1.34	0.86
(xiii) निवेश प्रबंधन प्रभार	3.50	0.36
(xiv) विधिक प्रभार	2.46	4.03
(xv) बीमा न्यायालय	0.14	0.15
(xvi) अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (ईसा) तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अंशदान	0.94	0.76
(xvii) रखरखाव खर्च	25.20	22.97
(xviii) बैंक खाता बनाए रखने के प्रभार एवं अन्य बैंक प्रभार	8.59	10.20
(xix) हानियाँ	—	0.68
(xx) मरम्मत और रखरखाव – ईआरपी प्रचालन खर्च तथा अन्य मरम्मत	38.72	47.16
(xxi) भर्ती खर्च	0.15	3.59
(xxii) राजस्व वसूली प्रकोष्ठ	0.53	0.59
(xxiii) विज्ञापन और प्रचार	10.25	13.45
(xxiv) पहरा व निगरानी	45.89	45.78
(xxv) प्रशिक्षण	0.18	3.64
(xxvi) विविध	13.73	35.40
(xxvii) स्वच्छता कार्य योजना व्यय	0.22	0.24
(xxvii) कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत व रखरखाव	43.10	37.40
कुल	273.61	322.30

SCHEDULE 22 – OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
(i) Electricity and power	18.43	20.36
(ii) Water charges	1.44	1.36
(iii) Insurance	0.56	0.94
(iv) Rent, Rates and Taxes	36.75	39.44
(v) Vehicles Running and Maintenance (Including Hire Charges)	3.17	4.04
(vi) Postage, Telephone and Communication Charges	7.31	7.60
(vii) Printing and Stationary	4.09	6.73
(viii) Travelling and Conveyance Expenses	6.67	14.24
(ix) Subscription Expenses - periodicals	0.16	0.27
(x) External Audit Fees	0.09	0.06
(xi) Internal Audit Fees	0.00	-
(xii) Consultancy Services Expenditure	1.34	0.86
(xiii) Investment Management Charges	3.50	0.36
(xiv) Legal Charges	2.46	4.03
(xv) Insurance Courts	0.14	0.15
(xvi) Contribution to ISSA & other international organisations	0.94	0.76
(xvii) House keeping expenses	25.20	22.97
(xviii) Charges for maintaining bank accounts & other bank charges	8.59	10.20
(xix) Losses	-	0.68
(xx) Repairs and Maintenance - ERP Operating Expenses & Others repairs	38.72	47.16
(xxi) Recruitment expenses	0.15	3.59
(xxii) Revenue recovery Cell	0.53	0.59
(xxiii) Advertisement and Publicity	10.25	13.45
(xxiv) Watch & Ward	45.89	45.78
(xxv) Training	0.18	3.64
(xxvi) Miscellaneous	13.73	35.40
(xxvii) swachhata action plan expenditure	0.22	0.24
(xxvii) Repair & Maint. of office Building & Staff Quarters	43.10	37.40
TOTAL	273.61	322.30



अनुसूची 23 – अनुदान, सहायिकी इत्यादि पर व्यय

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
क) संस्थाओं / संगठनों को दिए गए अनुदान	–	–
ख) संस्थाओं / संगठनों को दी गई सहायिकियां	–	–
कुल	–	–

अनुसूची – ब्याज

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
क) नियत ऋणों पर	–	–
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	–	–
ग) अन्य (यदि हो तो उल्लेख करें)	–	–
कुल	–	–

SCHEDULE 23 – EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
a) Grants given to Institutions / Organisations	-	-
b) Subsidies given to Institutions / Organisations	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULE – INTEREST

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
a) On Fixed Loans	-	-
b) On Other Loans (including Bank Charges)	-	-
c) Others (specify)	-	-
TOTAL	-	-



अनुसूची 24 – महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1.	वित्तीय विवरण प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक लागू अनिवार्य लेखाकरण मानकों तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा संस्तुत लेखाकरण के सामान्य फार्मेट की संगत प्रस्तुतियोग्य अनिवार्यताओं के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत अन्यथा वर्णित हो।
2.	स्थायी परिसंपत्ति: स्थायी परिसंपत्तियाँ सकल मूल्य की ऐतिहासिक लागत पर वर्णित की जाती हैं।
3.	मूल्यह्रास: (क) स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास क.रा.बी. निगम की आशोधित लेखाकरण नीति के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है। पूंजीकरण वर्ष में ₹ 5,000/- तक की लागत वाली सभी परिसंपत्तियों का पूर्ण रूप से मूल्यह्रासित किया जाता है। चालू वर्ष 2020-2021 के दौरान पूंजीकृत परिसंपत्ति के लिए आनुपातिक मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।
4.	वस्तु सूची: निगम द्वारा संचालित अस्पतालों में वस्तु-सूची, भंडार और अतिरिक्त माल का मूल्यवान लागत पर किया जाता है। ये लागतें प्रथम प्रवेश प्रथम निर्गम आधार पर होती हैं। क.रा.बी. निगम लेखाकरण नीति के अनुसार वस्तु-सूची में केवल दवाओं, प्रयोगशाला वस्तुएं जैसे किटें, केमिकल आदि, शल्य चिकित्सा उपस्कर, गद्दे सहित चादर, वर्दी, एक्स-रे फिल्में तथा केमिकल एवं कटलरीज तथा बर्तन शामिल हैं। लेखन सामग्री वस्तुएं केवल राजस्व खर्च के लिए प्रभार्य हैं।
5.	राजस्व: राजस्व का लेखाकरण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है। तथापि, नियोक्ता को जारी किए गए मांग / वसूली नोटिस के माध्यम से की गई किसी वसूली के मामले में, राजस्व का हिसाब नकद आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज का लेखा-जोखा नकद आधार पर रखा जाता है।
6.	निवेश: दीर्घ अवधि के रूप में वगीकृत निवेश तथा चालू निवेश लागत पर किए जाते हैं। सभी निवेश अनुमोदित निवेश नीति में यथा निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋण, सरकारी गारंटी बॉण्ड, सरकार सेवित बॉण्ड, एएए, सीपीएसयू बॉण्ड, मियादी जमा तथा अन्य प्रतिभूतियों के रूप में संविभाग प्रबंधकों के माध्यम से किए जाते हैं।
7.	कर्मचारी हितलाभ: उपदान, पेंशन, छुट्टी नकदीकरण और पेंशनभोगी चिकित्सा योजना के लिए पृथक निधि रखी गई है। ऐसी मदों पर निगम की देयता का वर्ष के अंत में बीमांकन आधार पर हिसाब किया जाता है। बीमांकन मूल्यांकन के कारण निधि में जोड़ या घटा का, जोड़ या घटा के वर्ष में निगम के व्यय या आय के रूप में, यथास्थिति, हिसाब रखा जाता है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा अर्जित छुट्टी के नकदीकरण का हिसाब उसी वर्ष में व्यय के रूप में किया जाता है।
8.	पूंजीगत निर्माण आरक्षित: पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि को अनुपूरक कार्यसूची मद संख्या 1 द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2014 को आयोजित क.रा.बी. निगम की 161वीं बैठक में 'गैर-उद्दिष्ट निधि' के रूप में घोषित किया गया। फरवरी, 2019 में आयोजित, क.रा.बी. निगम की 177वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सी.सी.आर.एफ. के लिए प्रावधान 5 वर्ष के लिए नहीं बनाए जाने हैं।

SCHEDULE 24 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY

1	The Financial Statement are prepared on accrual basis unless otherwise stated, under the historical cost convention in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of Common Format of Accounting recommended by C & AG of India.
2	Fixed Assets: Fixed assets are stated at historical cost at gross value.
3	Depreciation: (a) Depreciation on Fixed Assets is provided on Straight Line Method at the rates specified in Companies Act, 2013 as per revised accounting policy of ESIC. All assets costing up to ₹ 5,000 are fully depreciated in the year of capitalization. Proportionate depreciation is provided for assets capitalised during the current year 2019-20
4	Inventory: Inventory, store and spares in Hospitals managed by Corporation are valued at cost. The costs are based on first in first out basis. As per accounting Policy of ESIC inventory comprises of Medicines, Lab Items viz. kits, chemicals etc., Surgical Equipment's, Linen including Mattress, Liveries, X-ray Films and chemicals & Cutleries and Utensils only. Stationery items are charged to revenue expenditure only.
5	Revenue: Revenue is accounted on accrual basis. However in case of any recovery through demand / recovery notice issued to employer, which can be disputed in court of law, the revenue is recorded on cash basis. Further, Interest on advance to employees is accounted for on cash basis.
6	Investment: Investment classified as long-term and current investments are carried at cost. All investments are made as per approved investment policy through portfolio managers in the form of Government Securities, State Development Loans, Government Guaranteed Bonds, Government serviced bonds, AAA CPSU Bonds, Fixed Deposits and other securities as specified in approved Investment policy.
7	Employees Benefits: Separate fund for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Pensioners' Medical Scheme has been set up. The liability of Corporation on the account of such items is accounted for on actuarial basis at the year end. The addition or deletion to fund on account of actuarial valuation is accounted as expenditure or income, as the case may be, of the Corporation in the year of addition or deletion. Encashment of Earned Leave by employees during the year is accounted as expenses in the same year.
8	Capital Construction Reserve: Capital Construction reserve fund has been declared as Non-Earmarked fund in 161 st meeting of ESI Corporation held on 14 th February' 2014 vide supplementary agenda item no. 1. As per decision taken in 177 th meeting of ESI Corporation held in February, 2019 , provision for CCRF is not to be made for 5 years.



अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां

क्र सं	1. लेखाओं पर टिप्पणी
1.1	वर्ष 2020-2021 के लिए क.रा.बी. निगम के लेखाओं को, लेखाकरण के प्रोद्भवन आधार पर तैयार कर, वित्त मंत्रालय द्वारा स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित सामान्य फॉर्मेट में, भारत के महालेखापरीक्षक द्वारा संस्तुत कर एवं क.रा.बी. निगम द्वारा यथा अंगीकृत कर तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
1.2	वित्तीय विवरण लेखाकरण की प्रोद्भवन पद्धति के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तुलना की सुविधा हेतु, जहां भी आवश्यकता हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहन किया जाता है।
1.3	पूर्व अवधि आय / व्यय को लेखाकरण मानक-5 (ए एस-5) के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखाकरण किया गया है।
1.4	क.रा.बी. निगम द्वारा सीधे तौर पर चिकित्सक सुविधा के प्रावधान हेतु वर्ष 2017-18 तक दिल्ली सरकार से वसूली योग्य कुल राशि ₹ 1974.19 करोड़ है। तथापि दिल्ली सरकार अपने पत्र संख्या एफ-17(3)(1) / डीएचएस / जीआइए / 2013 / ईएसआइसी / 52324, दिनांक 26.09.2014 द्वारा खर्च के 1/8 शेयर का भुगतान करने हेतु सहमत हुई थी परंतु दिनांक 31.03.2021 तक इसका भुगतान नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार से प्राप्ति का लेखाकरण प्राप्ति के वर्ष में किया जाएगा। 29वीं उत्तरी आंचलिक परिषद की बैठक में कराबी निगम के देय मामले उठाए गए तथा अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार को कराबी निगम को सहयोग देने का निदेश दिया। तदनुसार, दिल्ली सरकार स्वास्थ्य योजना (डीजीएचएस) को दिनांक 14.01.2020 को पत्र जारी किया जा चुका है।
1.5	किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिकता आरक्षित निधि (पूर्व में आपात आरक्षित निधि के रूप में ज्ञात) का सृजन किया गया है। दिनांक 27/28 नवम्बर, 1986 की स्थायी समिति और निगम की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इस निधि में केवल शेष ₹ 75.00 करोड़ रुपये तक सीमित किया गया। चूंकि इस निधि में शेष ₹75.00 करोड़ रुपये था, अतः कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
1.6	वर्ष के दौरान कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ईबीआरएफ) पेंशन, अनुदान, छुट्टी नकदीकरण तथा पेंशनभोगी चिकित्सा योजना, के लिए प्रावधान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 37 के उपबंध तथा लेखाकरण मानक 15-कर्मचारी हितलाभ के संबंध में बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। वर्ष के दौरान स्थायी निःशक्तता हितलाभ निधि (पीडीबीएफ) तथा आश्रितजन हितलाभ निधि (डीबीएफ) के लिए प्रावधान भी बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। बीमांकन मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31.03.2021 तक के अनुसार आश्रित हितलाभ निधि ₹ 1,231.92 करोड़ की आधिक्य राशि दर्शा रही है जिससे बीमांकन लाभ हुआ है और उसे महत्वपूर्ण लेखा नीति के पैरा 7 के अनुसार विविध आय के रूप में दर्ज किया गया है। स्थायी निःशक्तता हितलाभ तथा आश्रितजन हितलाभ देयताओं में सारभूत परिवर्तनों का कारण बेहतर गुणवत्ता तथा अन्य कारक होना है।

SCHEDULE 25 – CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

SI No	1. NOTES ON ACCOUNTS
1.1	The accounts of ESI Corporation for the year 2020-21 are prepared on accrual basis of accounting in the common format for Autonomous Bodies prescribed by Ministry of Finance, recommended by C &AG of India and as adopted by ESI Corporation and approved by Ministry of Labour and Employment, Government of India.
1.2	The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, as per the accrual method of accounting. The previous year figures are regrouped, wherever required, for convenience of comparisons.
1.3	Prior period income / expenditure is accounted for as per guideline of Accounting Standards -5 (AS-5).
1.4	The total amount recoverable from Delhi Govt. towards provision of medical services directly by ESIC up to the year 2017-18 stands at ₹ 1974.19 crores. Govt of Delhi vide its letter no. F.17(3)(1) / DHS / GIA / 2013 / ESIC / 52324 dated 26.09.2014 had agreed to pay 1/8 th share of expenditure but the same is not paid till 31.03.2021. Accounting of receipt from Delhi Government will be done in the year of receipt. In the 29 th Northern Zonal Council meeting the matter of ESIC dues was taken up and the Chairperson directed the Delhi Government to contribute to ESIC. Accordingly a letter has been issued to the DGHS, Government of Delhi on 14.01.2020.
1.5	Contingency Reserve Fund (earlier known as Emergency Reserve Fund) has been created to meet any emergency situation. In pursuance of the decision of the Standing Committee and the Corporation taken in their meeting on 27 / 28 th November, 1986, the balance in this fund is limited to ₹ 75.00 crores only. As the balance in this fund was ₹ 75.00 crores, no provision has been made.
1.6	The provision for Employees' Benefit Reserve Fund (EBRF) [Pension, Gratuity, Leave Encashment and Pensioners Medical Scheme] during the year has been done on the basis of actuarial valuation in terms of Accounting Standard 15 - Employees Benefit and provision of Sec 37 of Employees' State Insurance Act 1948. The provision for Permanent Disability Benefit Fund (PDBF) and Dependent Benefit Fund (DBF) during the year has also been done on the basis of actuarial valuation. As per actuarial valuation report - Dependent Benefit Fund as on 31.03.2021 was showing an excess of ₹ 1,231.92 crore, which has been accounted for an actuarial gain and booked as Miscellaneous income in terms of para 7 of the significant accounting policy. The reason for substantial changes in Permanent Disability Benefit and Dependent Benefit liabilities is because of better quality data and other factors.



वार्षिक लेखे / 2020-21

1.7	उद्दिष्ट आरक्षित निधि के निवेश पर ब्याज को अनुसूची 15 के अंतर्गत संबंधित आरक्षित निधि में जमा किया गया है तथा गैर उद्दिष्ट निधि पर ब्याज को आय एवं व्यय लेखा में निगम की आय के रूप में लिया गया है। क.रा.बी. निगम ने भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) के माध्यम से विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) में भी निवेश किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) ने दिनांक 24 मई, 2021 के उनके पत्र संख्या फा.सं.-पी.ए.ओ. / पत्राचार / क.रा.बी.नि. / एम.एस. / 2020-21 / 255-67 द्वारा दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति अनुसार विशेष जमा खाते (एस.डी.ए.) में ₹ 18,182.13 करोड़ के विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) का अंतःशेष की पुष्टि की। विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) पर ब्याज ₹ 1,205.35 करोड़ है। निवेश पर ब्याज और उद्दिष्ट तथा गैर- उद्दिष्ट निधि के लिए उनके नियतन का ब्योरा निम्नानुसार है :-																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">निवेश पर ब्याज (₹ करोड़ में)</th> <th colspan="2">नियतन (₹ करोड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) पर ब्याज</td> <td>1,205.35</td> <td>उद्दिष्ट निधियां</td> <td>1,917.44</td> </tr> <tr> <td>मियादी जमा / प्रतिभूतियों पर ब्याज / लाभांश</td> <td>6,672.28</td> <td>गैर उद्दिष्ट निधियां</td> <td>5,960.19</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>7,877.63</td> <td>कुल</td> <td>7,877.63</td> </tr> </tbody> </table>		निवेश पर ब्याज (₹ करोड़ में)		नियतन (₹ करोड़ में)		विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) पर ब्याज	1,205.35	उद्दिष्ट निधियां	1,917.44	मियादी जमा / प्रतिभूतियों पर ब्याज / लाभांश	6,672.28	गैर उद्दिष्ट निधियां	5,960.19	कुल	7,877.63	कुल	7,877.63
निवेश पर ब्याज (₹ करोड़ में)		नियतन (₹ करोड़ में)															
विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) पर ब्याज	1,205.35	उद्दिष्ट निधियां	1,917.44														
मियादी जमा / प्रतिभूतियों पर ब्याज / लाभांश	6,672.28	गैर उद्दिष्ट निधियां	5,960.19														
कुल	7,877.63	कुल	7,877.63														
1.8	क.रा.बी. निगम निधि का समेकित निवेश उद्दिष्टि तथा गैर उद्दिष्ट निधियों के लिए किया जाता है। कुल निवेश पर अर्जित ब्याज का नियतन, क.रा.बी. निगम भविष्य निधि के अलावा वित्तीय वर्ष के लिए निधि के आदि शेष के आधार पर निधियों में से किया जाता है। क.रा.बी. निगम भविष्य निधि के लिए ब्याज नियतन वर्ष के लिए अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाता में जमा वास्तविक ब्याज के आधार पर किया जाता है। ब्याज नियतन से अधिक अभिदाता लेखा के लिए जमा सामान्य भविष्य निधि ब्याज का आधिक्य सामान्य निधि अथवा इसके विपर्यय से अंतरित किया जाता है।																
1.9	दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार क.रा.बी. निगम की कुल निवेश राशि ₹ 1,16,253.32 करोड़ है जिसमें से विशेष जमा खाता में निवेश राशि ₹ 18,182.13 करोड़ है तथा अनुसूचित कमर्शियल बैंकों के साथ मियादी जमा राशि ₹ 36.64 करोड़ (लीगसी मियादी जमा) है और दिनांक 31.03.2021 तक के अनुसार निवेश के रूप में संरक्षक (कस्टोडियन) सहित निधि ₹ 98,034.55 करोड़ है। निवेश क.रा.बी. (केंद्रीय विनियम), 1950 के नियम 27 के साथ पठित क.रा.बी. अधिनियम 1948 की धारा 29(2) के उपबंध तथा अनुमोदित निवेश नीति के विधिवत किया गया है।																
1.10	₹ 1,471.20 करोड़ का प्रशासनिक खर्च कुल राजस्व आय का 6.98% बनता है। इसमें कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि-उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा पेंशनभोगी चिकित्सा सुविधा की देयताओं के लिए ₹ 423.39 करोड़ भी शामिल है।																
1.11	क.रा.बी. निगम की दिनांक 14 फरवरी, 2014 को आयोजित 161वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार पूरक कार्यसूची द्वारा पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि के निवेश पर ब्याज की गणना राजस्व आय के रूप में की गई है।																
1.12	अनुसूची 20 क (1) में दर्शाए अनुसार राज्य सरकार को खातागत भुगतान में वर्ष 2012-13 से पहले बीते वर्षों (जब लेखा का नकद आधार का अनुसरण किया जाता था) के लिए राज्य सरकार को किए गए भुगतान शामिल करता है, जिसके लिए वर्ष 2020-2021 में लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया। बीमाकृत व्यक्तियों तथा परिवार के लिए चिकित्सा देखरेख पर व्यय हेतु राज्य सरकार को भुगतान उच्चतम सीमा प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई के शर्ता-धीन राज्य में बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। (वर्ष 2018-19 के लिए यह उच्चतम सीमा ₹ 3,000/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई है)। इसके अतिरिक्त दिनांक 19.02.2019 को आयोजित निगम की 177वीं बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार निर्धारित उच्चतम सीमा तक क.रा.बी. योजना के संचालन पर होने वाले पूरे व्यय का वहन, वर्ष 2019-2020 से तीन वर्षों के लिए क.रा.बी. निगम द्वारा किया जा रहा है।																

1.7	Interest on investment of earmarked reserve fund has been credited to respective reserve fund under schedule 15 and Interest on non earmarked fund has been taken as income of the Corporation in Income & Expenditure Account. ESIC has also invested in Special Deposit Account (SDA) through Pay & Account Office (PAO), Ministry of Labour & Employment. PAO of Ministry of Labour & Employment has confirmed the closing balance of SDA of ₹18,182.13 crore as on 31.03.2021 vide their Letter No. F.No. PAO / Crores / ESIC / MS / 2020-21 / 255-67 dated 24 th May 2021. Interest on SDA is ₹1,205.35 crore. Detail of interest on investment and their allocation to earmarked and non-earmarked fund are as follows :																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">INTEREST ON INVESTMENTS (₹ in crore)</th> <th colspan="2">ALLOCATION (₹ in crore)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interest on SDA</td> <td>1,205.35</td> <td>Earmarked funds</td> <td>1,917.44</td> </tr> <tr> <td>Interest/ Dividend on Fixed Deposit / securities</td> <td>6,672.28</td> <td>Non-earmarked Funds</td> <td>5,960.19</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>7,877.63</td> <td>Total</td> <td>7,877.63</td> </tr> </tbody> </table>	INTEREST ON INVESTMENTS (₹ in crore)		ALLOCATION (₹ in crore)		Interest on SDA	1,205.35	Earmarked funds	1,917.44	Interest/ Dividend on Fixed Deposit / securities	6,672.28	Non-earmarked Funds	5,960.19	Total	7,877.63	Total	7,877.63
INTEREST ON INVESTMENTS (₹ in crore)		ALLOCATION (₹ in crore)															
Interest on SDA	1,205.35	Earmarked funds	1,917.44														
Interest/ Dividend on Fixed Deposit / securities	6,672.28	Non-earmarked Funds	5,960.19														
Total	7,877.63	Total	7,877.63														
1.8	Consolidated investment of ESIC Fund in done for Earmarked and Non-earmarked funds. Interest earned on total investment is allocated among the funds on the basis of opening balance of the fund for the financial year except for ESIC Provident Fund. Interest allocation to ESIC Provident Fund is done on the basis of actual interest credited to subscriber's GPF account for the year. Excess of GPF interest credited to Subscribers account over interest allocated is transferred from General Reserve Fund and vice-versa.																
1.9	The total investment of ESIC as on 31.03.2021 stands to ₹ 1,16,253.32 crore, out of which investment in Special Deposit Account is ₹ 18,182.13 crore and in fixed deposit with schedule commercial Banks ₹ 36.64 crore (Legacy FD) and Funds with custodian in the form of investment as on 31.03.2021 is ₹ 98,034.55 crore. Investment is done in accordance with provision of section 29(2) of the ESI Act, 1948, read with Rule 27 of ESI (Central Rules), 1950 and duly approved investment policy.																
1.10	Administrative Expenses of ₹ 1,471.20 crore works out as 6.98% of the Total Revenue Income. This includes ₹ 423.39 crore towards provision of liability of Employee's Benefit Reserve Fund - Pension, Gratuity, Leave Encashment, and Pensioners Medical Scheme.																
1.11	Interest on investment of Capital Construction Reserve Fund (CCRF) has been accounted for as Revenue Income as per decision taken in 161 st meeting of ESI Corporation held on 14 th February' 2014 vide supplementary agenda item no. 3.																
1.12	On account payment to State Government as shown in schedule 20 A (1) includes payment to State Government for past years before 2012-13 (when cash basis of accounting was followed), for which audit certificate is received in 2020-21. Payment to State Govt towards expenditure on medical care for Insured Persons (IP's) and family is made on the basis of no. of IP's in the State subject to the ceiling per IP family unit. (For 2018-19, this ceiling is ₹ 3,000/- per IP family unit). Further, as per the decision taken in the 177 th meeting of the Corporation held on 19.2.2019, the entire expenditure on running the ESI Scheme, up to the prescribed ceiling, are being borne by the ESIC for three years starting from 2019-20.																



1.13	वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए धारा 45क के अंतर्गत कालातीत मामलों की अनंतिम राशि 432 मामलों में ₹3.28 करोड़ है।
1.14	क.रा.बी. अधिनियम 1948 की धारा 37 के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित, परिसंपत्तियों तथा देयताओं का मूल्यांकन मूल्यकार द्वारा किया जा चुका है तथा स्थायी निःशक्तता हितलाभ, आश्रितजन हितलाभ, पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा पेंशनभोगी चिकित्सा योजना के लिए प्रावधान किया जा चुका है।
1.15	पूँजीगत निर्माण आरक्षित निधि अस्पतालों, औषधालयों, कार्यालय भवनों, स्टाफ क्वार्टरों आदि के निर्माण के लिए है और अंशदान का एक प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2017-2018 तक इस निधि में अंतरित किया जा रहा था, हालांकि पिछले वर्ष की भांति ऐसे नियतन पर 5 वर्षों के अधिस्थतगन के लिए दिनांक 19.02.2019 को आयोजित क.रा.बी. निगम की 177वीं बैठक के निर्णय के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
1.16	वस्तु (संपत्ति) सूची के शेष माल पर एफ.आइ.एफ.ओ. पद्धति से मूल्यांकन किया जाता है।
1.17	नियत परिसंपत्ति आंतरिक मालभाड़ा, शुल्क और कर तथा आकस्मिक व्ययों के सम्मिलित उपार्जन के लागत पर निश्चित की जाती है।
1.18	कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर ब्याज नकद आधार पर मान्य किया जाता है।
1.19	पूर्वावधि वस्तुदण (आय एवं व्यय) अनुसूची-26 लागू लेखाकरण मानक के अनुपालन में वर्गीकृत है।
1.20	वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान लेखागत इकाई निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली में ₹ 12.35 करोड़ तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा के अंतर्गत एक शाखा कार्यालय में ₹ 29.49 लाख के वित्तीय धोखे का भी पता चला। वर्ष 2017-18 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब के अधीन लालरू शाखा कार्यालय में ₹ 42.48 लाख रुपये की राशि के वित्तीय धोखे का पता चला। मामला अभी तक जांच के अधीन है। वित्तीय प्रभाव जांच की समाप्ति के पश्चात ज्ञात होगा। वर्ष 2019-20 के दौरान कुछ और वित्तीय धोखाधड़ी का पता चला। धोखाधड़ी का विवरण (1) प्रसूति हितलाभ मामला क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद : सतर्कता जांच में प्रसूति हितलाभ के 21 मामले उजागर हुए जिनमें कुल ₹ 15,85,126/- रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी सम्मिलित थी। इन मामलों में लिप्त कर्मचारियों और अन्य शामिल लोगों के विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो / भ्रष्टाचार निरोध शाखा (सीबीआई / एसीबी), चंडीगढ़ में एफ.आर.आई. दर्ज कराई गई है। इन मामलों में सम्मिलित कर्मचारियों के विरुद्ध क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद में अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 14 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013-2015 की विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट से धोखाधड़ी के ₹ 3,90,63,182/- राशि के अतिरिक्त 1097 मामलों का पता चला। अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है। (2) प्रसूति हितलाभ मामला, उप क्षेत्रीय कार्यालय, लुधियाना: विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 29 मामलों में कुल ₹ 11,07,757/- रुपये की धोखाधड़ी का पता चला। क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर इसकी जांच की जा रही है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है। उपर्युक्त राशि में से ₹ 17,116/- छोड़कर शेष राशि वसूल की गई है। (3) शाखा कार्यालय, कादी, गुजरात: अप्रैल से दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान शाखा कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम निधि खाता संख्या 2 से कपटपूर्वक ₹ 14,15,090/- रुपये का गबन किया गया था। ₹ 34,669/- की राशि वसूल की गई। मामले में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध क्षेत्रीय कार्यालय, गुजरात द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ की गई है। (4) प्रसूति हितलाभ मामला, शाखा कार्यालय बोम्बनसांद्रा: दक्षिण क्षेत्र की सतर्कता इकाई द्वारा वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 की अवधि के दौरान प्रसूति हितलाभ भुगतान के 71 कपटपूर्ण मामलों का पता चला, जिनमें ₹ 52,68,144/- रुपये की धोखाधड़ी शामिल था। आगे की जांच प्रक्रियाधीन है। (5) प्रसूति हितलाभ मामला, शाखा कार्यालय, आदित्यनपुर, गोलमुरी और रांची झारखंड, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान कपटपूर्ण प्रसूति हितलाभ भुगतान ₹ 18,22,199/- रिपोर्ट किया गया है। मामले को झारखंड राज्य एसीबी को अगली आवश्यक कार्रवाई हेतु सौंपा गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, झारखंड के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है।

1.13	The tentative amount of time barred cases u/s 45 A for the financial year 2020-21 is ₹ 3.28 crore involving 432 cases.
1.14	As per Section 37 of The ESI Act, 1948 , as amended time to time, valuation of assets and liabilities has been carried out by valuer and provision for Permanent Disablement Benefit, Dependent Benefit, Pension, Gratuity, Leave Encashment and Pensioners Medical Scheme has been done.
1.15	Capital Construction Reserve Fund is for construction of hospitals, dispensaries, Office buildings, staff quarters, etc and one percent of Contribution was being transferred to this fund up to FY 2017-18, however like previous year, no provision has made during current financial year also as decided 177 th meeting of ESI Corporation held on 19.02.2019 to have a moratorium of 5 years on such allocation.
1.16	Inventory has been valued on FIFO method on closing stock.
1.17	Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and Incidental expenses.
1.18	Interest on loan & Advances to employees is recognised on cash basis.
1.19	Prior Period Items (Income & Expenditure) - Schedule - 26 are classified in compliance of applicable accounting standard.
1.20	During the year 2014-15 financial frauds amounting to ₹ 12.35 crore in accounting units Director (Medical) Delhi, and ₹ 29.49 lakhs in one branch office under SRO, Vijaywada were detected. During 2017-18 fraud in Lalru Branch office under Regional Office, Punjab amounting to ₹ 42.48 lakhs was also reported. The matter is still under investigation. The financial impact shall be recognised after completion of investigation. Some more financial fraud were detected during the year 2019-20. The details of fraud is : (1) Maternity Benefit case, Regional Office, Faridabad : 21 cases involving amounting ₹15,82,126/- was detected as fraud in vigilance investigation. FIR has been lodged with CBI / ACB, Chandigarh against the officials and others involved. Disciplinary action against involved officials is under process at R.O., Faridabad. 14 no. of officials placed under suspension. Further, Special Audit Report of 2013-15 revealed additional 1,097 cases involving amount of ₹ 3,90,63,182/- as fraud. Disciplinary action as well as criminal action are under process. (2) Maternity Benefit case, SRO, Ludhiana: As per Special Audit Report, 29 cases of ₹ 11,07,757/- was detected as fraud. The investigation is under taken at RO level. Disciplinary action as well as Criminal action are under process. Out of the above said amount total amount is recovered except ₹ 17,116. (3) Fraud reported at Branch Office, Kadi, Gujrat: An amount of ₹ 14,15,090/- from ESIC Funds Account No 2 was fraudulently embezzled by the officials of the branch office during the period April to December 2018. An amount of ₹ 34,669 has been recovered. Disciplinary proceeding has been initiated against the official by the Regional Office, Gujrat. (4) Maternity Benefit case, Branch Office, Bommansandra: 71 cases of fraudulent MB payment amounting to ₹52,68,144/- were detected during period 2016-17, 2017-18 and 2018-19 by the Vigilance Unit, South Zone. Further investigation is under process. (5) Maternity Benefit Case, Branch Office, Aditypur, Golmuri and Rachi, Jharkhand, During financial year 2020-21, the fraudulent Maternity Benefit payments ₹ 18,22,199/- has been reported. The matter has been handed over to Jharkhand State ACB for further needful action. Disciplinary action has been initiated against the officials of RO Jharkhand.



वार्षिक लेखे / 2020-21

1.21	वर्ष 2018-19 के दौरान क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल, अंधेरी, महाराष्ट्र तथा निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली में आग लगने की दुर्घटना हुई। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, अंधेरी में अग्नि दुर्घटना के कारण ₹ 67.65 लाख रुपये की दवाइयों का नुकसान आंका गया और इस नुकसान को स्थायी समिति की 216वीं बैठक में अनुमोदन के बाद माफ कर दिया गया तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान खाते में दर्ज किया गया।
1.22	क्षेत्र लेखा इकाइयों द्वारा गलत वर्गीकरण के कारण कर्मचारी के स्थानांतरण पर वेतन की अग्रिम और मोटरकार अग्रिम नकारात्मक शेष दर्शा रहा है। इन शीर्षों के वर्गीकरण करने के लिए प्रयास जारी है।
1.23	अनुसूची-8 (नियत परिसंपत्तियां) तथा अनुसूची-1 (पूंजीगत आरक्षण) में ₹ 1.00 की दर से ओ.बी.एस. परिसंपत्तियां प्रारंभिक परिसंपत्तियां दर्शाती है जिन्हें मार्च, 2012 तक नकद आधार पर लेखाकरण में राजस्व खर्च के रूप में बुक किया गया है, वर्ष 2012-13 के दौरान नकद आधार पर लेखाकरण से प्रोद्भूत आधार पर लेखाकरण तक, जो कि क.रा.बी. निगम की लेखा नीति के अनुसार अनुमोदित है, से अंतरण करते समय प्रारंभिक तुलन-पत्र (ओबीएस) में ₹ 1.00 प्रति परिसंपत्ति के रूप में बुक किया गया है।
1.24	सामान्य भविष्य निधि खाता तथा वार्षिक खाता अनुसार सामान्य भविष्य निधि शेष के बीच अंतर, वर्ष 2012-13 में लेखाकरण के नकद आधार से प्रोद्भूत आधार पर लेखाकरण तक स्विच करने के समय उत्पन्न हुए अंतर को दर्शाता है। वर्ष 2012-13 के दौरान मार्च, 2013 के वेतन हेतु प्रावधान का लेखाकरण, सामान्य भविष्य निधि कटौती सहित मार्च, 2013 में किया गया जबकि सामान्य भविष्य निधि खाता में वास्तविक सामान्य भविष्य निधि प्रविष्टि अप्रैल, 2013 में की गई।
1.25	दिनांक 31.03.2021 तक के अनुसार अंशदान तथा ब्याज की बकाया राशि की वसूली के लिए ₹ 4,459.69 करोड़ की राशि शेष है जिसमें से विभिन्न कारणों से वर्तमान देय के लिए ₹ 1,943.22 करोड़ वसूली योग्य नहीं है। ब्योरे नीचे दिए गए हैं :-
वर्तमान के लिए वसूली न होने योग्य राशि	
	₹ करोड़ में
क) न्यायालयों में विवादित बकाया राशि	1,477.35
ख) परिसमापन के अंतर्गत राशि	274.00
ग) दावा आयुक्त के पास लंबित राशि	5.67
घ) बंद तथा जिन नियोक्ताओं का अता-पता ज्ञात नहीं, उन कारखानों / स्थापनों से देय राशि	184.81
ड) राशि जिनके लिए डिक्री प्राप्त कर ली गई, पर निष्पादित नहीं की गई है	1.39
कुल क	1,943.22
रुग्ण उद्योगों से देय राशि	
i) उन कारखानों से संबंधित मामले जो बी.आइ.एफ.आर. के साथ पंजीकृत हैं परंतु जहां पुनर्वास योजना अभी मंजूर होनी है।	129.64
ii) कारखाने / स्थापनाएं जो रुग्ण घोषित की गई हैं और पुनर्वास योजना बी.आइ.एफ.आर. द्वारा मंजूर कर दी गई है।	90.63
कुल ख	220.27
क) नियोक्ताओं का पता-ठिकाना पता है परंतु इकाई बंद है।	143.47
ख) वसूली अधिकारी के पास वसूली के लिए लंबित वसूली योग्य देय राशि	2,152.73
कुल ग	2,296.20
कुल योग (क + ख + ग)	4,459.69

1.21	During the year 2018-19 fire accident occurred in ESIC Model Hospital, Andheri, Maharashtra and Director (medical) Delhi. Loss of drugs was assessed in ESIC Hospital Andheri valued ₹ 67.65 lacs and the same was condoned after due approval of Standing Committee in the 216 th meeting and booked during the financial year 2019-20.																														
1.22	Advances of Pay on Transfer of employees and Motor Car Advance is showing negative balance due to misclassification by field accounting units. Efforts for classification under these heads are undergoing.																														
1.23	Assets in OBS @ ₹ 1.00 in Schedule - 8 (Fixed Assets) and Schedule - 1 (Capital Reserve) represents opening assets, booked as revenue expenditure in cash basis of accounting up to March, 2012, booked at ₹ 1.00 per assets in Opening Balance Sheet (OBS) during 2012-13 at the time of switching from cash basis of accounting to accrual basis of accounting as per approved accounting policy of ESIC																														
1.24	The difference between GPF balance as per GPF Accounts and Annual Accounts represents difference arisen at the time of switching from cash basis to accrual basis of accounting in the year 2012-13. During the year 2012-13 accounting of provision for Salary of March, 2013 was done in March, 2013 along with GPF deductions where as actual GPF posting in GPF Accounts in April, 2013.																														
1.25	An amount of ₹ 4,459.69 crores is outstanding for recovery of arrears of contribution and interest as on 31.03.2021 out of which ₹ 1,943.22 crore is not recoverable for the present due to various reasons. The details are as below:-																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Arrears not recoverable for the present</th> <th style="text-align: center;">₹ in crores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Amount of arrears disputed in courts</td> <td style="text-align: right;">1,477.35</td> </tr> <tr> <td>b) Amount under liquidation.</td> <td style="text-align: right;">274.00</td> </tr> <tr> <td>c) Amount pending with claim commissioner</td> <td style="text-align: right;">5.67</td> </tr> <tr> <td>d) Amount due from factories / Estt. which have been closed and whereabouts of employer not known.</td> <td style="text-align: right;">184.81</td> </tr> <tr> <td>e) Amount for which decree obtained but not executed</td> <td style="text-align: right;">1.39</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL A</td> <td style="text-align: right;">1,943.22</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dues from sick industries</td> </tr> <tr> <td>i) Cases in respect of Factories registered with BIFR but rehabilitation scheme yet to be sanctioned.</td> <td style="text-align: right;">129.64</td> </tr> <tr> <td>ii) Factories / Establishments which have been declared sick and rehabilitation scheme sanctioned by BIFR</td> <td style="text-align: right;">90.63</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL B</td> <td style="text-align: right;">220.27</td> </tr> <tr> <td>a) Employers whereabouts known but unit is closed</td> <td style="text-align: right;">143.47</td> </tr> <tr> <td>b) Recoverable dues pending for Recovery with Recovery Officer</td> <td style="text-align: right;">2,152.73</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL C</td> <td style="text-align: right;">2,296.20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GRAND TOTAL (A + B + C)</td> <td style="text-align: right;">4,459.69</td> </tr> </tbody> </table>	Arrears not recoverable for the present	₹ in crores	a) Amount of arrears disputed in courts	1,477.35	b) Amount under liquidation.	274.00	c) Amount pending with claim commissioner	5.67	d) Amount due from factories / Estt. which have been closed and whereabouts of employer not known.	184.81	e) Amount for which decree obtained but not executed	1.39	TOTAL A	1,943.22	Dues from sick industries		i) Cases in respect of Factories registered with BIFR but rehabilitation scheme yet to be sanctioned.	129.64	ii) Factories / Establishments which have been declared sick and rehabilitation scheme sanctioned by BIFR	90.63	TOTAL B	220.27	a) Employers whereabouts known but unit is closed	143.47	b) Recoverable dues pending for Recovery with Recovery Officer	2,152.73	TOTAL C	2,296.20	GRAND TOTAL (A + B + C)	4,459.69
Arrears not recoverable for the present	₹ in crores																														
a) Amount of arrears disputed in courts	1,477.35																														
b) Amount under liquidation.	274.00																														
c) Amount pending with claim commissioner	5.67																														
d) Amount due from factories / Estt. which have been closed and whereabouts of employer not known.	184.81																														
e) Amount for which decree obtained but not executed	1.39																														
TOTAL A	1,943.22																														
Dues from sick industries																															
i) Cases in respect of Factories registered with BIFR but rehabilitation scheme yet to be sanctioned.	129.64																														
ii) Factories / Establishments which have been declared sick and rehabilitation scheme sanctioned by BIFR	90.63																														
TOTAL B	220.27																														
a) Employers whereabouts known but unit is closed	143.47																														
b) Recoverable dues pending for Recovery with Recovery Officer	2,152.73																														
TOTAL C	2,296.20																														
GRAND TOTAL (A + B + C)	4,459.69																														



2.	आकस्मिक देयताएं
	<p>2.1 मैसर्स विप्रो ने क.रा.बी. निगम के विरुद्ध ₹ 963.13 करोड़ की राशि का दावा करते हुए माध्यस्थम (विधि) केस दर्ज किया था। क.रा.बी. निगम ने भी सेवाओं में कमी और परिवर्तन के गैर-प्रावधान के कारण ₹ 214.22 करोड़ का प्रतिदावा दायर किया है। ₹ 552 करोड़ के लिए क.रा.बी. निगम के विरुद्ध फरवरी 2019 में माध्यस्थम का अधि-निर्णय प्राप्त हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिनिर्णय को अलग रखने के लिए अभ्यारवेदन दर्ज किया जा चुका है। दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशानुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम को मध्यस्थ अधिकरण के माध्यम से अधि-निर्णय राशि का 25% हिस्सा महापंजीयक के पास जमा करना है। इस आदेश के अनुपालन में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष के अनुमोदन पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 12.02.2020 को दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक के पास अधिनिर्णय की गई राशि का 25% हिस्सा अर्थात् ₹ 138,28,79,937/- (एक सौ अड़तीस करोड़ अड़ताईस लाख उन्चासी हजार नौ सौ सैंतीस रुपये मात्र) जमा किए हैं। इस राशि को वित्तीय वर्ष 2019-2020 में बही खाते में विशेष अग्रिम / जमा के रूप में दर्ज किया गया था।</p>
	<p>2.2 क.रा.बी. निगम के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में प्राप्ति / स्वीकार नहीं किया गया-राजस्व मामलों के लिए क.रा.बी. निगम के विरुद्ध मामलों की राशि ₹ 84.10 करोड़ है जिसमें 911 मामले शामिल हैं।</p>
3.	पूंजी प्रतिबद्धताएं
	<p>3.1 दिनांक 31 मार्च, 2021 को स्थिति के अनुसार गैर-निष्पादित पूंजी अनुबंध की राशि ₹ 3,492.47 करोड़ है।</p>
4.	विदेशी मुद्रा लेन-देन
	<p>4.1 वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई व्यय नहीं किया गया है।</p>
5.	<p>दिनांक 31 मार्च, 2021 तक के तुलन-पत्र के साथ अनुसूची 1 से 26 संलग्न की जाती है जो इसका एक अभिन्न भाग है तथा वर्ष की आय और व्यय लेखा इसी तिथि को समाप्त हुई।</p>
6.	<p>कोविड-19 महामारी का प्रकोप होने पर, क.रा.बी. निगम के अस्पताल आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कोविड-19 समर्पित अस्पताल के रूप में राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों द्वारा उपार्जन किए (लिए) गए थे। इन अस्पतालों को सभी अवसंरचना एवं सुविधाओं और चिकित्सकों और स्टाफ सहित अधिग्रहित किया गया था। कोविड महामारी से संबंधित उपचार के लिए राज्यों / संघ शासित प्रदेशों से देय राशि को अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत बुक किया गया। इसके अतिरिक्त इस महामारी के दौरान क.रा.बी. निगम के अस्पतालों को जहां कोविड समर्पित अस्पताल के रूप में राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों द्वारा उपार्जन किया जा रहा है, वहां क.रा.बी. निगम प्राप्त होने वाले दावों के प्राक्कलन के लिए भी प्रक्रियधीन है।</p>
7.	<p>न्यायालय के अधिनिर्णय के दृष्टिगत वर्ष 2020-2021 के दौरान कुछ कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) से पुरानी पेंशन योजना में प्रवास का प्रयोग किया है। ऐसे मामलों में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के अंत में क.रा.बी. निगम ऐसे मामलों में सामान्यन भविष्य निधि खाते में शेष राशि के संभावित हस्तांतरण पर ब्याज देयता निर्धारित करने की प्रक्रिया में था।</p>

2	CONTINGENT LIABILITIES
	2.1 M/s WIPRO had filed an arbitration case claiming an amount of ₹ 963.13 crores against ESIC. ESIC has also filed a counter claim for ₹ 214.22 crore on account of deficiency in deliveries and non provision of transition. Award of the arbitration has been received in February 2019 against ESIC for ₹ 552 crore. An application to set aside the award has been filed in Delhi High Court. As directed by the High Court of Delhi, ESIC has to deposit 25% of awarded amount by the Arbitral Tribunal with Registrar General. In compliance to the order ESIC has deposited 25% of the awarded amount i.e. ₹ 138,28,79,937/- (Rupees One thirty eight Crores, Twenty eight Lakhs, Seventy Nine Thousand, Nine Hundred and Thirty Seven only) with the Registrar General of the Delhi High Court on 12.02.2020 and with the approval of the Chairman ESIC. The same was booked as special advance / Deposits in books of accounts in 2019-20.
	2.2 Claims against ESIC not acknowledged as Debt - Cases filed against ESIC for revenue matters is amounting to ₹ 84.10 crore involving 911 cases.
3	CAPITAL COMMITMENTS
	3.1 Capital Contract remain unexecuted as on 31 st March 2021 is amounting to ₹ 3,492.47 crore.
4	FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS
	4.1 No expenditure in foreign currency has been incurred during the financial year 2020-21.
5	Schedule 1 to 26 are annexed to and forming integral part of the Balance Sheet as at 31 st March 2021 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.
6	On the outbreak of pandemic COVID-19, the Hospitals of ESIC were acquisitioned by State Governments / UTs as dedicated COVID19 hospital under the provisions of Disaster Management Act 2005. These hospital were acquisitioned along with all infrastructure & amenities including doctors & staff. Amount due from State / UTs for COVID related treatment has been booked under Other receivables. Further, the ESIC is also under process of estimation of claims to be received wherever Hospitals of ESIC are being acquisitioned by State Governments / UTs as dedicated COVID Hospital during this ongoing pandemic.
7	In view of court judgement, during the 2020-21 some employees have exercised migration from New Pension Scheme (NPS) to old pension scheme. At the end of financial year 2020-21 the ESIC was in process of determining interest liability on account of likely transfer of balances to General Provident Fund Account in such cases.



अनुसूची 26 – पूर्वावधि मदें

	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
क) पूर्वावधि आय	8.17	0.39
ख) पूर्वावधि खर्च	(12.42)	(67.48)
कुल	20.59	67.87

SCHEDULE 26 – PRIOR PERIOD ITEMS

	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
a) Prior Period Income	8.17	0.39
b) Prior Period Expenditure	(12.42)	(67.48)
TOTAL	20.59	67.87

₹ करोड़ में

क्र. सं.	विवरण उद्दिष्ट निधियां	अथ शेष 01.04.2020	वर्ष के दौरान प्राप्तियां			निधि का अंतरण	निधि से भुगतान	वर्ष के दौरान निवल परिवर्धन ज = (ग + घ + ङ - च - छ)	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार शेष
			क	ख	ग				
			क	ख	ग	घ	ङ	छ	झ = (ख+ज)
1.	स्थायी निःशक्तता हितलाभ आरक्षित निधि	6,497.26	1,849.52	477.16	-	-	306.68	2,020.00	8,517.26
2.	आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि	4,122.15	(1,231.92)	302.73	-	-	274.93	(1,204.12)	2,918.03
3.	कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	22.49	5.59	1.65	-	-	13.15	(5.91)	16.58
4.	अस्पताल भवनों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	1,140.41	79.31	83.75	-	-	22.82	140.24	1,280.65
5.	अन्य परिसंपत्तियों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	1,388.72	310.06	101.99	-	-	-	412.05	1,800.77
6.	विकित्सा शिक्षा भवनों के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि	418.12	167.03	30.71	-	-	-	197.74	615.86
7.	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि-पेंशन	9,905.85	495.93	727.48	1.26	-	460.01	764.66	10,670.51
8.	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि-उपदान	719.71	110.04	52.86	-	-	56.88	106.02	825.73
9.	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि-छुट्टी नकदीकरण	681.21	113.96	50.03	-	-	32.29	131.70	812.91
10.	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि-पी.एम.एस.	169.18	30.91	12.42	2.16	-	13.35	32.14	201.32
11.	क.रा.बी.नि. भविष्य निधि	1,106.47	168.91	76.66	-	-	175.21	70.36	1,176.83
	कुल	26,171.57	2,099.34	1,917.44	3.42	-	1,355.32	2,664.88	28,836.45

सामान्य रिजर्व निवेश खाते में / से अंतरित ।

टिप्पणी: ऋणात्मक (माइनस) आंकड़े दर्शाते हैं कि निधि में से भुगतान, वर्ष के दौरान निधि में से प्राप्तियों से अधिक थी

₹ करोड़ में

निवेश - गैर उद्विष्ट आरक्षित निधियां

संलग्नक-II

क्र. सं.	विवरण	अथ शेष 01.04.2020	वर्ष के दौरान निवेश	सीसीआरएफ / अन्य निधियों से अंतरण	उद्विष्ट निधियों को अंतरण	वर्ष के दौरान निवल जोड़	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तक शेष
	क	ख	ग	घ	ङ	च = (ग + घ - ङ)	छ = (ख+च)
I	सामान्य आरक्षित निधि	73,741.02	8,986.60	302.62	2,664.88	6,624.34	80,365.36
	कुल क	73,741.02	8,986.60	302.62	2,664.88	6,624.34	80,365.36
क्र. सं.	विवरण	अथ शेष 01.04.2020	वर्ष के दौरान प्रावधान	अन्य निधियों से अंतरण	निधि से भुगतान	सामान्य आरक्षित निधि को अंतरित निवल जोड़	दिनांक 31.03.2020 तक शेष
	क	ख	ग	घ	ङ	च = (ङ-ग)	छ = (ख-च)
II	आकस्मिकता आरक्षित निधि	75.00	-	-	-	-	75.00
III	पूँजीगत निर्माण आरक्षित निधि	7,279.13	-	-	302.62	302.62	6,976.51
	कुल ख	7,354.13	-	-	302.62	302.62	7,051.51
	कुल योग (क + ख)	81,095.15					87,416.87



क.रा.बी. निगम भविष्य निधि

31 मार्च, 2021 को सामान्य भविष्य निधि प्राप्तियां तथा भुगतान

प्राप्तियां	राशि (₹ करोड़ में)	भुगतान	राशि (₹ करोड़ में)
1. अथ शेष	1,091.08	1. अभिदाता को किया गया भुगतान	175.26
2. वर्ष के दौरान प्राप्तियां	168.69	2. अंत शेष	1,161.17
3. जमा किया गया ब्याज	76.66		
4. घटाएं : अदावाकृत जमाओं में अंतरित राशि	—		
कुल	1,336.43	कुल	1,336.43

विवरण	सा.भ.नि. खातों के अनुसार (₹ करोड़ में)	क.रा.बी.नि. खातों के अनुसार (₹ करोड़ में)	अंतर (₹ करोड़ में)
अथ शेष 01.04.2020 (क)	1,091.08	1,106.47	(15.39)
प्राप्ति 2020-2021 (ख)	168.69	168.91	(0.22)
ब्याज 2020-2021 (ग)	76.66	76.66	(0.00)
उप योग घ = (क + ख + ग)	1,336.43	1,352.04	(15.61)
भुगतान 2020-2021 (ङ)	175.26	175.21	0.05
अंत शेष 31.03.2021 (घ - ङ)	1,161.17	1,176.83	(15.66)

ESI CORPORATION PROVIDENT FUND GPF RECEIPTS AND PAYMENTS AS ON 31ST MARCH, 2021

RECEIPTS	AMOUNT (₹ in crore)	PAYMENTS	AMOUNT (₹ in crore)
1. Opening Balance	1,091.08	1. Payment to the subscribers	175.26
2. Receipt during the year	168.69	2. Closing Balance	1,161.17
3. Interest credited	76.66		
4. Less: Amount transferred to Unclaimed Deposits	-		
TOTAL	1,336.43	TOTAL	1,336.43

PARTICULARS	As Per GPF Accounts (₹ in crore)	As per ESIC Accounts (₹ in crore)	Difference (₹ in crore)
Opening Balance 1.4.2020 (A)	1,091.08	1,106.47	(15.39)
Receipt 2020-21 (B)	168.69	168.91	(0.22)
Interest 2020-21 (C)	76.66	76.66	(0.00)
Sub Total D (A + B + C)	1,336.43	1,352.04	(15.61)
Payment 2020-21 (E)	175.26	175.21	0.05
Closing Balance 31.03.2021 (D - E)	1,161.17	1,176.83	(15.66)



सत्यमेव जयते



प्राप्तियाँ	2020-2021 (₹ करोड़ में)	2019-2020 (₹ करोड़ में)	भुगतान	2020-2021 (₹ करोड़ में)	2019-2020 (₹ करोड़ में)
I. अद्य शेष			I. व्यय		
क) नकद रोकड़	0.03	0.05	क) बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर खर्च (अनुसूची 20 के तदनु रूप)	9,732.46	10,093.51
ख) बैंक शेष	-	-	ख) स्थापना खर्च (अनुसूची 21 के तदनु रूप)	1,136.17	1,156.08
i) चालू खातों में	-	-	ग) अन्य प्रशासनिक खर्च (अनुसूची 22 के तदनु रूप)	314.85	430.48
ii) जमा खातों में	-	-	II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि के निमित्त किए गए भुगतान	-	-
iii) बचत खाते	16.93	16.44	III. किए गए निवेश और जमा	-	-
ग) धन प्रेषण	-	-	क.रा.बी. निगम निधियों का निवेश	39,965.86	90,724.08
II. प्राप्त किए गए अनुदान	-	-	IV. स्थायी परिसंपत्ति पर खर्च और पूंजीगत कार्य की प्रगति	-	-
क) भारत सरकार से	-	-	क) स्थायी परिसंपत्ति की खरीद	109.43	156.16
ख) राज्य सरकार से	-	-	ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर खर्च	302.62	577.60
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण) (पूंजीगत एवं राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को अलग से दर्शाया जाए)	-	-	V. अधिशेष धन / ऋण की वापसी	-	-
III. निवेश से आय	-	-	क) भारत सरकार को	-	-
क.रा.बी. निगम निधियों का निवेश	7,816.47	10,424.49	ख) राज्य सरकार को	-	-
IV. प्राप्त किए गए ब्याज	-	-	ग) अन्य निधि प्रदाताओं को	-	-
क) बैंक में जमा राशियों पर	13.44	11.98	VI. वित्त प्रभार (ब्याज)	-	-
ख) कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम	0.20	0.38	VII. अन्य भुगतान (जल्लिखित करें)	-	-
V. निवेश-परिपक्वता	30,979.26	74,901.43	क) विशेष मरम्मत एवं अनुरक्षण	13.04	28.95
VI. आय-अंशदान	13,082.85	17,808.82	ख) वृत्तीय पक्ष अग्रिम	148.20	204.34
VII. उधार राशि	-	-	ग) कर्मचारी अग्रिम	46.69	10.38
VIII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)	-	-	घ) प्रतिभूतियां एवं अन्य जमा राशियां	75.85	61.36
क) जमा (प्रतिभूति / बयाना जमा / विविध)	32.95	99.45	ड) पूर्व अवधि मंदां	(10.77)	(73.92)
ख) चिकित्सा शिक्षा प्राप्ति	35.82	33.97	च) कर्मचारी हितलाभ (सामान्य भविष्य निधि, नई पेंशन योजना, जीएसएलआईएस इत्यादि)	462.71	435.24
ग) कर्मचारी हितलाभ निधि (पेंशन अंशदान, पीएमएस प्राप्ति इत्यादि)	460.95	438.13	छ) सांविधिक देय राशि एवं अन्य कटौतियां	11.84	(10.45)
घ) अन्य आय	1,293.68	877.38	VIII. अंत शेष	-	-
	-	-	क) नकद रोकड़	0.03	0.03
	-	-	ख) बैंक शेष	-	-
	-	-	i) चालू खातों में	-	-
	-	-	ii) जमा खातों में	-	-
	-	-	iii) बचत खाते	50.91	16.93
	-	-	ग) धन प्रेषण	1,372.67	801.75
कुल	53,732.58	104,612.52	कुल	53,732.58	104,612.52

Annual Accounts / 2020-21



सत्यमेव जयते



RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2020-21

RECEIPTS	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)	PAYMENTS	2020-21 (₹ in crore)	2019-20 (₹ in crore)
I. Opening Balance			I. Expenses		
a) Cash in hand	0.03	0.05	a) Expenditure On Benefits To Insured Persons (corresponding to Schedule 20)	9,732.46	10,093.51
b) Bank Balances	-	-	b) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 21)	1,136.17	1,156.08
i) In current accounts	-	-	c) Other Administrative Expenses (corresponding to Schedule 22)	314.85	430.48
ii) In deposit accounts	-	-	II. Payments made against funds for various projects	-	-
iii) Savings accounts	16.93	16.44	III. Investments and Deposits made	-	-
c) Remittances	-	-	Investments of ESIC Funds	39,965.86	90,724.08
II. Grants Received	-	-	IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress	-	-
a) From Government of India	-	-	a) Purchase of Fixed Assets	109.43	156.16
b) From State Government	-	-	b) Expenditure on Capital Work-in-progress	302.62	577.60
c) From other sources (details) (Grants for capital & revenue exp. To be shown separately)	-	-	V. Refund of surplus money/Loans	-	-
III. Income on Investments from	-	-	a) To the Government of India	-	-
Investments of ESIC Funds	7,816.47	10,424.49	b) To the State Government	-	-
IV. Interest Received	-	-	c) To other providers of funds	-	-
a) On Bank deposits	13.44	11.98	VI. Finance Charges (Interest)	-	-
b) Employees' Loans & Advances	0.20	0.38	VII. Other Payments (Specify)	-	-
V. Investment-Maturity	30,979.26	74,901.43	a) Special Repair & Maintenance	13.04	28.95
VI. Income - Contribution	13,082.85	17,808.82	b) Third Party Advances	148.20	204.34
VII. Amount Borrowed	-	-	c) Employees' Advance	46.69	10.38
VIII. Any other receipts (give details)	-	-	d) Securities & Other Deposits	75.85	61.36
a) Deposits (Security /EMD/Misc.)	32.95	99.45	e) Prior Period Items	(10.77)	(73.92)
b) Medical Education Receipts	35.82	33.97	f) Employees Benefit (GPF ,NPS,GSLISetc.)	462.71	435.24
c) Employees Benefit Fund (Pension Contribution, PMS Receipt etc.)	460.95	438.13	g) Statutory Dues & other deduction	11.84	(10.45)
d) Other Income	1,293.68	877.38	VIII. Closing Balances	-	-
	-	-	a) Cash in hand	0.03	0.03
	-	-	b) Bank Balances	-	-
	-	-	i) In current accounts	-	-
	-	-	ii) In deposit accounts	-	-
	-	-	iii) Savings accounts	50.91	16.93
	-	-	c) Remittances	1,372.67	801.75
Total	53,732.58	104,612.52	Total	53,732.58	104,612.52



क.स.बी.नि
ESIC

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment
Government of India

Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi - 110 002
Toll Free No. 1800-11-2526, Medical Helpline No. 1800-11-3839
Website: www.esic.nic.in, www.esic.in

[esic.nic.in](http://www.esic.nic.in) [@esichq](https://www.facebook.com/esichq) [@esichq](https://www.instagram.com/esichq) [@esichq](https://www.youtube.com/channel/UC...) [@esichq](https://www.linkedin.com/company/esichq) [@esichq](https://www.pinterest.com/esichq)